



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1736]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2011/भाद्र 22, 1933

No. 1736]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2011/BHADRA 22, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2011

का.आ. 2077(अ).—भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं. का.आ. 2592(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 19 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित की गई थी और जिसे रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी किया गया था, केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पश्चिमी बंगाल राज्य हुबली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् दानकुनी-फुरफुरा शरीफ (20 कि.मी.) नई लाइन चैनेज 1.210 से 7.404 के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध तथा प्रचालन के लिए अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार, दैनिक समाचार-पत्रों अर्थात् टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी संस्करण) सन्मार्ग (हिंदी संस्करण), दैनिक विश्वमित्र (हिंदी संस्करण), तारीख 6 दिसम्बर, 2010, टैलीग्राफ (अंग्रेजी संस्करण), संगबाद प्रतिदिन (बंगाली संस्करण), दैनिक स्टेट्समैन (बंगाली संस्करण), अखबार-ए-मशरीक (उर्दू संस्करण), तारीख 7 दिसम्बर, 2010 और वर्तमान (बंगाली संस्करण), तारीख 8 दिसम्बर, 2010 में उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन प्रकाशित किया गया था;

और, 378 (तीन सौ अठत्तर) आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है और उन्हें अननुज्ञात कर दिया है।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाएगा;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में पूर्ण रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिमी बंगाल राज्य के हुगली जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात् दानकुनी-फुरफुरा शरीफ (20 किमी), नई लाइन, चैनज 1.210 किमी से 7.404 किमी के लिए संरचनाओं सहित या संरचनाओं रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त ब्यौरा।

क्रम संख्या	गांव का नाम	नवीनतम राजस्व प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि के मालिक/हितवादी व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कालीपुर -99	347	0.023	रायत	शाली	मिलन चंद्र रे, मुन्ना लालाजी राव.
		348	0.085	रायत	शाली	कांतिदेवी गुप्ता, राम बालक पवन, प्रमिता चंद्र डे, अमृत्यधन गुप्ता, रत्न अछेरा, लक्ष्मी कांता गोरोई, कृष्ण चंद्र गुप्ता, राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता.
		349	0.02	रायत	शाली	तीनकोरी बैंग
		350	0.029	रायत	शाली	माला देवी, सुमिता देवी, सुलो देवी, जैली आचार्य, बुधिष्टिर दास, लक्ष्मीरानी दास, श्यामअली पाल, उषारानी पैन, कनई दास, रेनू राँय, नित्य राँय, मंजू देवी, ओमप्रकाश शर्मा
		353	0.038	रायत	शाली	गणेश प्रमाणिक, संगीता साऊ, शेख फजले करीम मोला, मानस प्रमाणिक
		355	0.038	रायत	शाली	हरीराम महतो, बासुदेव कोले
		356	0.02	रायत	शाली	विजय दास, मानसराम दास, मिलन चंद्र रे, शम्भू दास, सुबाला दास, काशीनाथ दास.
2.	गोबरा -92	482	0.023	रायत	शाली	इंदुभूषण घोष, ऋषिकेश घोष
		484	0.122	रायत	सूना	मंगलचंडी घोष, नंदारानी घोष, ममता घोष, गणेश घोष, नमिता घोष, गोपी घोष, तपन घोष, रजनी घोष, शम्भू घोष
		485	0.158	रायत	सूना	जुगलकृष्ण घोष.
		486	0.183	रायत	सूना	महीमोहन घोष, छेना दास, नित्यानंद घोष, भूपेन्द्र घोष, सत्य घोष, हेमंत घोष.
		487	0.044	रायत	झांगा	जुगलकृष्ण घोष.
		530	0.075	रायत	शाली	ज्योतिन्द्रनाथ मंडल.
		534	0.018	रायत	सूना	नारोनचंद्र भादुड़ी.
		535	0.06	रायत	सूना	मानसराम भादुड़ी, अजीत भादुड़ी, कार्तिक भादुड़ी, गणेश भादुड़ी, प्राण भादुड़ी, अस्तुबाला भादुड़ी, बेछुबाला भादुड़ी.
		536	0.092	रायत	सूना	तारापद घोष.
		537	0.068	रायत	सूना	क्षेत्र पाल, नित्य पाल.
		538	0.06	रायत	सूना	मानसराम भादुड़ी, अजीत भादुड़ी, कार्तिक भादुड़ी, गणेश भादुड़ी, प्राण भादुड़ी, अस्तुबाला भादुड़ी, बेछुबाला भादुड़ी.
		539	0.035	रायत	सूना	मानसराम भादुड़ी, अजीत भादुड़ी, कार्तिक भादुड़ी, गणेश भादुड़ी, प्राण भादुड़ी, अस्तुबाला भादुड़ी, बेछुबाला भादुड़ी.
		540	0.008	रायत	सूना	रबीन्द्रनाथ पाल.
		540/1708	0.02	रायत	सूना	जोगेश पाल, शक्तिपदपद पाल, शशाधर पाल
		541	0.033	रायत	सूना	पशुपति पाल.
		541/1709	0.030	रायत	सूना	असीत कुमार पाल, मृत्युंजय पाल, उपेन्द्र पाल
		542	0.04	रायत	सूना	भूक्ताराम भादुड़ी.
		543	0.024	रायत	सूना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		543	0.024	रायत	सूना	मानसराम भादुड़ी, अजीत भादुड़ी, कार्तिक भादुड़ी, गणेश भादुड़ी, प्राण भादुड़ी, अस्तुबाला भादुड़ी, देवबाला भादुड़ी.
		544	0.066	रायत	रायत	ज्योतिरमय पाल, गोविंद पाल, स्वप्न कुमार पाल, सत्य नारायण पाल, गौड़ चंद्र पाल.
		545	0.05	रायत	सूना	रवीन्द्रनाथ पाल.
		546	0.04	रायत	सूना	मुक्तारामभादुड़ी.
		547	0.04	रायत	सूना	किरणमय पाल, कृष्ण प्रसाद पाल, जयश्री साठ, भवानी प्रसाद पाल.
		548	0.03	रायत	शाली	सुफल भादुड़ी
		549	0.17	रायत	शाली	गोविंद घोष, विजय घोष, अनिल कुमार घोष.
		550	0.006	रायत	शाली	द्वारकानाथ घोष.
		550/1710	0.003	रायत	शाली	तारक घोष, हरीपद घोष.
		554	0.107	रायत	शाली	अजीत कुमार घोष, दीनानाथ घोष, जयदेव घोष, वैद्यनाथ घोष
		644	0.359	रायत	शाली	जय, अंगूरबाला होली, शक्तिपद पाल, शशधर पाल, जोगेश चंद्र पाल, प्रतिमा रानी नायक, सरस्वती नेगाला, रेखा रे, अंजलि बंदूरी
		645	0.008	रायत	सूना	शशधर पाल, शक्तिपदपद पाल, जोगेश पाल
		645/1717	0.191	रायत	सूना	असीत कुमार पाल, मृत्युंजय पाल, उपेन्द्र पाल
		646	0.21	रायत	शाली	नित्यानंद घोष, भूपेन्द्र घोष, मानस बासा घोष, मणि मोहन घोष.
		647	0.008	रायत	शाली	परेश शाई, मोहन शाई, सैनेन्द्र शाई, सुदर्शन शाई
		648	0.181	रायत	शाली	गुरुपद घोष, नीरपद घोष
		649	0.273	रायत	शाली	गुरुपद घोष, नीरपद घोष
		650	0.197	रायत	सूना	सैनेन्द्र नाथ घोष.
		651	0.006	रायत	शाली	ज्योतिन्द्रनाथ मंडल.
		766	0.006	रायत	खमार	पवन चंद्र घोष, मानसराम घोष, अस्तु चरण घोष, परेश चंद्र घोष, सैनेन्द्रनाथ घोष, अमिताभ घोष, सूर्यकांता घोष
		767	0.025	रायत	बास्तु	मानसराम घोष, अस्तु चरण घोष, परेश चंद्र घोष, सैनेन्द्रनाथ घोष, चंडी चरण घोष, गौराचंद घोष, अजीत घोष, दीनानाथ घोष, जयदेव घोष, पवन कुमार घोष, बीरेन्द्र घोष, चंदना साठ, रत्न चंद्र घोष, लाबोपद घोष, सुफल चंद्र घोष, सूर्यकांता घोष, गौड़ चंद्र घोष, सीतल चंद्र घोष
		769	0.1	रायत	बास्तु	पंचानन संभा, विश्वनाथ संभा, भारत संभा, सरथ संभा
		770/1660	0.21	रायत	सूना	गणेश कुमार सरकार, पवन कुमार सरकार, गोपाल कुमार सरकार, गणेश घोष, मानस घोष.
		781	0.09	रायत	दोबा	असीत कुमार पाल, मृत्युंजय पाल, जोतिन पाल, जोगेश पाल, रवीन्द्रनाथ पाल, शक्तिपद पाल, शशधर पाल, उपेन्द्र पाल, मानस घोष, गणेश घोष, पशुपति पाल.
		782	0.174	रायत	बास्तु	गोपाल घोष, गौड़ घोष, पंचानन घोष, प्रतिमा घोष, मानस घोष, मिश्री चरण घोष, संतोष कुमार घोष, हरधन घोष.
		782/1623	0.08	रायत	रास्ता	दानकनी आंचल
		788	0.075	रायत	बास्तु	मंदू घोष, सुकुमार घोष, राजबाला घोष, पारूल घोष, नारायण घोष, मंगा घोष, छेना घोष, अंगूरबाला घोष, देवेन घोष, गौराचंद घोष, बनमाली घोष, भूतनाथ घोष, लाबोपद घोष
		796	0.308	रायत	विती	धनंजय घोष, महीमोहन घोष, नित्यानंद घोष, भूपेन्द्र घोष, आनंद मंडल, सुरांत मंडल, कमलकांता मंडल, हेमंत घोष.
		797	0.003	रायत	डंग्रा	पशुपति पाल, भारत चंद्र घोष, अजीत कुमार घोष, सनथ घोष, कार्तिक चंद्र घोष, मायारानी मंडल
		798	0.039	रायत	सूना	निशीकांता पाल, असीत कुमार पाल, मृत्युंजय पाल, जोतिन पाल, जोगेश पाल, रवीन्द्रनाथ पाल, शक्तिपद पाल, शशधर पाल, उपेन्द्र पाल.
		799	0.03	रायत	सूना	निशीकांता पाल, असीत कुमार पाल, मृत्युंजय पाल, जोतिन पाल, जोगेश पाल, रवीन्द्रनाथ पाल, शक्तिपद पाल, शशधर पाल, उपेन्द्र पाल.
		800	0.26	रायत	सूना	गुरुपद घोष, नीरपद घोष.
		803	0.07	रायत	सूना	नित्यानंद घोष, भूपेन्द्र घोष, मणिमोहन घोष.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		805	0.027	रायत	सूना	सतीदेवी सिंह, मनाविका घोष, विजय रे, प्रभाती रे
		806	0.008	रायत	सूना	भारत चंद्र घोष, अजीत कुमार घोष, सनय घोष, कार्तिक चंद्र घोष, मायारानी मंडल.
		809	0.002	रायत	सूना	कल्पना पाल, हरधन सेनगुप्ता.
		810	0.006	रायत	झाबा	पंकज कुमार पाल, देवदास अघाय, धर्मेजय घोष, प्रतिमा रानी नायक, सरस्वती नीजेल, अंगुरबाला होली, रवीन्द्रनाथ पाल, रेणुका पाल.
		1006/1624	0.006	रायत	पथ	दानकनी आधल
		1007	0.1	रायत	बांस बागान	गोराचंद घोष, लाबोपद घोष, सुर्यकांता घोष
		1008	0.415	रायत	सूना	मानसराय घोष, अस्तु चरण घोष, परेश चंद्र घोष, शैलेन्द्रनाथ घोष, गोराचंद घोष, अजीत घोष, दीनानाथ घोष, जयदेव घोष, पवन कुमार घोष, बीरेन्द्र घोष, वंदना साऊ, रत्न चंद्र घोष, लाबोपद घोष, सुफल चंद्र घोष, सुर्यकांता घोष
		1109	0.201	रायत	सूना	रत्न चंद्र घोष, गौड़ चंद्र घोष, सीतल चंद्र घोष, कार्तिक बेलेल, रामपद बेलेल, बासुदेव बेलेल, दीनबधू बेलेल, जाहरलाल बेलेल, रामजी दास, आशुतोष बेलेल
		1110	0.08	रायत	सूना	सुसात घोष, कार्तिक चंद्र घोष.
		1119/1785	0.006	रायत	सूना	रत्न चंद्र घोष
		1119/1786	0.080	रायत	सूना	रत्न चंद्र घोष
		1119/1787	0.050	रायत	सूना	अजीत कुमार कर्माकर, रंजीत कुमार कर्माकर.
		1115	0.005	रायत	शाली	शाही घोष, नमिता घोष, निमई घोष, अरुण घोष, बलई घोष, मान्याबाला घोष, मिनाती बोर, शम्भू घोष, शिबू घोष, सध्या घोष
		1116	0.015	रायत	शाली	सीतल घोष.
		1117	0.028	रायत	शाली	तारापद घोष, साबू घोष, (स्वर्गीय) सुफल घोष
		1118	0.037	रायत	शाली	तीनकोरी घोष, बादल चंद्र घोष
		1119	0.066	रायत	सूना	अजीत कुमार कर्माकर, रंजीत कुमार कर्माकर.
		1120	0.026	रायत	सूना	रत्न चंद्र घोष, गौड़ चंद्र घोष, सीतल चंद्र घोष, कार्तिक बेलेल, रामपद बेलेल, बासुदेव बेलेल, दीनबधू बेलेल, जाहरलाल बेलेल, आशुतोष बेलेल
		1121	0.084	रायत	सूना	अस्तु चरण घोष.
		1122	0.101	रायत	शाली	नकुल चंद्र शाई.
		1122/1789	0.005	रायत	शाली	परेश चंद्र घोष, शैलेन्द्रनाथ घोष
		1122/1790	0.111	रायत	शाली	हरधन घोष
		1122/1791	0.006	रायत	दोबा	जलधर घोष, सिबू घोष (बाल्ती), परेश चंद्र घोष, शैलेन्द्रनाथ घोष, नकुल चंद्र शाई, हरधन घोष.
		1122/1792	0.264	रायत	शाली	जलधर घोष (बाल्ती), सिबू घोष (बाल्ती)
		1164	0.069	रायत	शाली	केका दास, स्वप्न पाल, श्रीकांत साहू, अनिल साहू, नीलकांता मलिक, प्रवीर बैनर्जी, तोजामल हक लस्कर, नूरमोहम्मद लस्कर, सैफुल्ला लस्कर, मिनाती मलिक, अमल कुमार सरदार, सरस्वती मजूमदार.
		1165	0.081	रायत	शाली	प्रतिमा घोष, प्रतिमा साऊ, आरती नाथ, रवीन्द्रनाथ पाल, लीलावती राय, शंकर साऊ, उपेन्द्र पाल
		1166	0.044	रायत	शाली	अब्दुल कलाम लस्कर, गणेश चंद्र प्रमाणिक, अली अजगर लस्कर, याकूब अली लस्कर, अब्दुल करीम लस्कर, हुसैन अली लस्कर, हसन अली लस्कर
		1178	0.006	रायत	दोबा	अब्दुल कलाम लस्कर, नजमल शाहादत, अब्दुल ही लस्कर, महेरा खातून, सबरुद्दीन लस्कर, कुतुबुद्दीन लस्कर, अलाउद्दीन लस्कर, गणेश चंद्र प्रमाणिक, जमशेद अली लस्कर, दशरथी शाई, शेख सिद्धिक अली लस्कर, शेख नूर महम्मद (शेखहीरु) अब्दुल करीम लस्कर, अली अजगर लस्कर, मुजीबिर रहमान लस्कर, रशीदा खातून बीवी, याकूब अली लस्कर.
		1179	0.162	रायत	सूना	अब्दुल कलाम लस्कर, नजमल शाहादत, अब्दुल ही लस्कर, महेरा खातून, सबरुद्दीन लस्कर, कुतुबुद्दीन लस्कर, अलाउद्दीन लस्कर, गणेश चंद्र प्रमाणिक, जमशेद अली लस्कर, दशरथी शाई, सिद्धिक अली लस्कर, शेख नूर महम्मद (शेखहीरु) अब्दुल करीम लस्कर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1180	0.146	रायत	सूना	श्यामसुंदर कोने, भाकराजी कोने, परेश चंद्र घोष, तरुण कानि घोष, पंचानन डे, बाभाराम मुखोपाध्याय, विश्वनाथ चंद्र, सरस्वती डे, ईशराम मुखोपाध्याय
		1181	0.063	रायत	बास्तु	सत्य कुमार मुखोपाध्याय, मणिकराम मुखोपाध्याय, विश्वनाथ मुखोपाध्याय, ईशराम मुखोपाध्याय, बाभाराम मुखोपाध्याय
		1182	0.017	रायत	सूना	बनानी बैनजी, अनिल रईदास, प्रदीप घोष, अकबरअली मस्कर.
		1184	0.005	रायत	शाली	अनिल रईदास, गीतम दास, अस्तु पात्रा, अकाल अली मस्कर, मनताज अली मस्कर, मोताज अली मणिक, मुस्लिम अली मस्कर, अष्टवी दास, विष्णुपद सिंह, अरुणदास दास, सम्भूचरण दास, सीताल अली मस्कर
		1185	0.05	रायत	दोबा	अकबरअली मस्कर, बाभाराम मुखोपाध्याय, अकाल अली मस्कर, विश्वनाथ मुखोपाध्याय, मनताज अली मस्कर, मणिकराम मुखोपाध्याय, मुस्लिम अली मस्कर, सीताल अली मस्कर, सत्य कुमार मुखोपाध्याय, ईशराम मुखोपाध्याय,
		1186	0.015	रायत	शाली	अनिल कुमार डे, रूपा बैनजी, बाबू अली मस्कर.
		1187	0.101	रायत	शाली	महमज ठाकुर, चरण ठाकुर, कल्पना पात्रा, असीत कुमार पात्रा.
3.	बेलडगा -91	47	0.003	रायत	शाली	मंगला दासी, कमला बाला घोष
		48	0.167	रायत	शाली	कृष्णधन मंडल, अरूप मंडल, हिमांशु मंडल, किशोरी मंडल, रत्नबाला मंडल
		50	0.06	रायत	शाली	कृष्णधन घोष, कृष्ण चंद्र साई, मोहिंद घोष, मदन घोष
		51	0.09	रायत	शाली	सुरेन्द्रनाथ घोष
		52	0.09	रायत	शाली	प्रमिता घोष, सुधीर घोष
		53	0.22	रायत	शाली	अधीर घोष, रमेश चंद्र घोष, अरविंद घोष
		78	0.024	रायत	शाली	महमज साई, कृष्ण चंद्र साई, तुलसी चरण साई
		184	0.013	रायत	बास्तु	जितेन्द्रनाथ घोष, निमई चंद्र घोष, (स्वर्गीय) बलई चरण घोष, मणिराम चंद्र पात्रा, महमज चंद्र पात्रा, सन्ध्याली चरण घोष, कनईराम घोष, विश्वनाथ घोष मंडल, गणेश घोष मंडल, भवानी घोष मंडल, सम्भूनाथ घोष, आरती घोष, राजू घोष, राजेश घोष
		186	0.003	रायत	बास्तु	(स्वर्गीय) बलई चरण घोष, कालीपद मंडल
		192	0.02	रायत	बास्तु	नारायण मंडल, रवीन मंडल, वृंदावन मंडल, झोट राम मंडल, गोपाल चंद्र मंडल, जितेन्द्रनाथ घोष, प्रमिता घोष, (स्वर्गीय) बलई चरण घोष, मंगला दासी, जितेन्द्रनाथ घोष, कमला बाला घोष, सुधीर घोष, कनई नाम घोष, बासुदेव मंडल, विश्वनाथ घोष मंडल, गणेश घोष मंडल, भवानी घोष मंडल
		196	0.28	रायत	बास्तु	कृष्णधन मंडल, अरूप मंडल, विश्वनाथ मंडल, मानसराम मंडल, सरोजिनी मंडल, सुधीर घोष, हिमांशु मंडल, किशोरी मंडल
		197	0.01	रायत	पथ	बरीजहाती आचल
		198	0.07	रायत	पथ	बरीजहाती आचल
		199	0.02	रायत	विती	कृष्णधन मंडल, पंचानन साई, अरूप मंडल, विश्वनाथ मंडल, मानसराम मंडल, हिमांशु मंडल, कालीपद मंडल, किशोरी मंडल.
		200	0.17	रायत	बास्तु	छेना बाला घोष, बलई चंद्र बैगई, आनंद बैगई
		201	0.09	रायत	बास्तु	कृष्ण चंद्र घोष, गोवर्धन घोष.
		202	0.05	रायत	बास्तु	महादेव घोष, कनई घोष
		203	0.071	रायत	विती	दशरथी घोष, निमई घोष
		204	0.09	रायत	बास्तु	निमई घोष, सागर घोष
		205	0.04	रायत	विती	दशरथी घोष, निमई घोष
		206	0.05	रायत	बास्तु	दशरथी घोष, निमई घोष
		207	0.04	रायत	बास्तु	दुर्जोधन घोष
		207/1611	0.05	रायत	विती	निमई घोष.
		208	0.087	रायत	बास्तु	गिरीश घोष, बलई घोष
		209	0.003	रायत	पथ	बरीजहाती आचल
		210	0.002	रायत	बास्तु	सीतल चंद्र घोष, कायन चंद्र घोष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		219	0.059	रायत	पुक्र	अजित चंद्र घोष, कृष्णधन घोष, गणेश घोष, कृष्ण चंद्र घोष, गोविंद घोष, पंचानन घोष, अनिता घोष, महेश चंद्र घोष, जीवन कृष्ण घोष, तारक घोष, तुस्त चरण घोष, दशरथी घोष, दुर्जोधन घोष, नित्य चरण घोष, निमई घोष, अजीत घोष, बद्रीनाथ घोष, बलई घोष, बासुदेव घोष, बिरेश्वर घोष, आनंद कुमार बैगुई, अद्वेश्वर घोष, महादेव घोष, महेन्द्र घोष, रजनी घोष, रवीन्द्रनाथ घोष, सीतल चंद्र घोष, शैलेन्द्र नाथ घोष, उमरानी बेनेल, उर्मिला अदुई, सागर घोष, सुदर्शन घोष, सुधीर घोष, हरधन घोष, कादन चंद्र घोष, कनई घोष, गोवर्धन घोष
		220	0.03	रायत	बांस बागान	सिद्धेश्वर कोले, सुरेन्द्र नाथ घोष
		221	0.08	रायत	बास्तु	सिद्धेश्वर कोले
		222	0.1	रायत	बास्तु	सुरेन्द्र नाथ घोष
		223	0.13	रायत	शाली	गुईराम घोष, सुफल घोष
		224	0.08	रायत	विती	कृष्ण धन मंडल, गुईराम घोष, द्वारिक घोष, अरूप मंडल, सुफल घोष, हिमांशु मंडल, किशोरी मंडल
		225	0.398	रायत	पुक्र	कृष्णधन घोष, गणेश घोष, कृष्णधन मंडल, गुईराम घोष, गोविंद घोष, तुलसीबाला घोष, पंचानन शाई, परेश पाल, अरूप मंडल, पंचबाला दासी मंडल, प्रबोध आचार्य, प्रमिला घोष, बंशी घोष, बलई चंद्र बैगुई, विश्वनाथ घोष, विश्वनाथ मंडल, भवरानी घोष, भोलानाथ घोष, भारत घोष, मंगला दासी, मानसराम मंडल, महादेव घोष, जतिन्द्र नाथ घोष, रजनी घोष, रत्न बाला मंडल, रामेश्वर दापसी, सुधीर घोष, सुफल घोष, सुरेन्द्र नाथ घोष, स्वप्न घोष, कमला घोष, हिमांशु मंडल, कनई लाल घोष, किशोरी मंडल
		226	0.3	रायत	डांगा	सिद्धेश्वर घोष, सुरेन्द्र नाथ घोष, विद्युत घोष, प्रदीप घोष
		227	0.09	रायत	बांस बागान	जितेन्द्र नाथ घोष, प्रमिला घोष, (स्वर्गीय) बलई चरण घोष, मंगला दासी, कमला बाला घोष, सुधीर घोष, गणेश घोष, कनई लाल घोष, विश्वनाथ घोष मंडल, गणेश घोष मंडल, भवानी घोष मंडल, स्वप्न घोष, भारत घोष, भवरानी घोष, बंशी घोष
		228	0.13	रायत	डांगा	गुईराम घोष, सुफल घोष
		229	0.07	रायत	दोबा	कृष्णधन मंडल, गुईराम घोष, जितेन्द्र नाथ घोष, अरूप मंडल, प्रमिला घोष, (स्वर्गीय) बलई चरण घोष, मंगला दासी, रत्न बाला मंडल, कमला बाला घोष, सुधीर घोष, सुफल घोष, सुरेन्द्र नाथ घोष, हिमांशु मंडल, कनई लाल घोष, विश्वनाथ घोष मंडल, गणेश घोष मंडल, भवानी घोष मंडल, किशोरी मंडल.
		230	0.03	रायत	शाली	आनंद कुमार बैगुई
		231	0.1	रायत	शाली	दशरथी घोष, निमई घोष
		232	0.14	रायत	शाली	दुर्जोधन घोष
		233	0.17	रायत	विती	दशरथी घोष, निमई घोष, दुर्जोधन घोष, आनंद कुमार बैगुई, शैलेन्द्र नाथ घोष
		234	0.016	रायत	विती	निमई घोष, सागर घोष
		235	0.012	रायत	विती	कृष्ण चंद्र घोष, कृष्ण धन घोष, गोवर्धन घोष, अनिता घोष, पंचानन घोष, महादेव घोष, कनई घोष
		274	0.06	रायत	दोबा	दशरथी घोष, निमई घोष
		275	0.25	रायत	डांगा	पुष्पारानी बैगुई, काशी नाथ रे
		276	0.11	रायत	बास्तु	अरविंद घोष, जुगल घोष, अधीर घोष, रमेश चंद्र घोष, अरविंद घोष
		277	0.08	रायत	बास्तु	विजय नीजेल, समीर नीजेल, तारापद नीजेल, रबीन नीजेल, तपन नीजेल, बीनापानी नीजेल, मीनारानी नीजेल, मायारानी नीजेल.
		279	0.06	रायत	दोबा	कार्तिक चंद्र बैगुई, कनई घोष, अनिल घोष, कृष्णधन घोष, गोविंद घोष, पंचानन घोष, अशोक पारुल, महादेव घोष, जामिनी रजन घोष, जुगल घोष, शैलेन्द्र नाथ घोष, कर्ण कुमार कोले

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		280	0.02	रायत	डांगा	कृष्ण चंद्र घोष, भोवर्धन घोष, विजय नीजेल, विष्णु नीजेल, समीर नीजेल, तारापद नीजेल, रबीन नीजेल, तपन नीजेल, बीनापानी नीजेल, मीनारानी नीजेल, माथारानी नीजेल
		281	0.028	रायत	पथ	बोरीझाटी आंचल
		282	0.19	रायत	सूना	मदन घोष
		283	0.1	रायत	सूना	बनई चरण बैंगुई
		284	0.1	रायत	सूना	जयदेव घोष, सनातन घोष, सुकुमार घोष, सुनील घोष, सुशील घोष,
		285	0.052	रायत	सूना	धरानी पाती फुस्ती, निखिल फुस्ती, पानपाती फुस्ती, रघुपाती फुस्ती, सीतापाती फुस्ती
		286	0.1	रायत	सूना	गुईराम घोष, सुफल घोष
		290	0.003	रायत	सूना	कृष्ण चंद्र घोष, भोवर्धन घोष
		291	0.1	रायत	सूना	कनई घोष
		292	0.025	रायत	सूना	आनंद कुमार बैंगुई
		293	0.016	रायत	सूना	दशरथी घोष, निमई घोष
		296	0.03	रायत	सूना	कनई घोष
		297	0.05	रायत	विती	पदमा घोष
		298	0.05	रायत	दोबा	विजय घोष, गोविंद घोष, अनिल घोष
		299	0.51	रायत	सूना	जितेन्द्र नाथ घोष, अरुण कुमार घोष, (स्वर्गीय) बनई चरण घोष, कनईलाल घोष
		300	0.17	रायत	सूना	गौड़ हरी पोलेन, अरुण कुमार घोष, (स्वर्गीय) बनई चरण घोष, कनईलाल घोष
		301	0.09	रायत	सूना	जितेन्द्र नाथ घोष, निमई चंद्र घोष, (स्वर्गीय) बनई चरण घोष, मणिराम चंद्र पात्रा, लक्ष्मण चंद्र पात्रा, सतीन्द्र नाथ घोष, सन्यासी चरण घोष, कनई लाल घोष, विश्वनाथ घोष मंडल, गणेश घोष मंडल, अश्वानी घोष मंडल, शम्भू नाथ घोष, आरती घोष, राजू घोष, राजेश घोष
		302	0.006	रायत	विती	कृष्णधन मंडल, गिरीश घोष, गुईराम घोष, अंकुश पाल, चंद चक्रवर्ती, अरुण मंडल, मोलानाथ घोष, मंगला दासी, अजीत चक्रवर्ती, सुजीत चक्रवर्ती, सुधीर घोष, सुफल घोष, सुबन चंद्र घोष, हरीदयाल घोष, हिमांशु घोष, अर्जुन चंद्र घोष, जतिन्द्र नाथ घोष, सतीश चंद्र घोष, कनई लाल घोष, बनई घोष, किशोरी मंडल.
		304	0.2	रायत	सूना	कृष्णधन घोष, गोविंद घोष, महादेव घोष, जामिनी रजन घोष, कर्ण कुमार पोलेन, कार्तिक चंद्र बैंगुई, कनई घोष
		305	0.17	रायत	सूना	बनई चरण बैंगुई
		306	0.04	रायत	विती	बनई चरण बैंगुई, आनंद कुमार बैंगुई.
		307	0.09	रायत	बास्तु	बनई चरण बैंगुई, आनंद कुमार बैंगुई.
		308	0.04	रायत	विती	बनई चरण बैंगुई, आनंद कुमार बैंगुई.
		309	0.003	रायत	बास्तु	कृष्ण चंद्र घोष, भोवर्धन घोष.
		310	0.02	रायत	विती	कृष्ण चंद्र घोष
		311	0.003	रायत	बास्तु	गोपाल घोष, नयन घोष.
		312	0.004	रायत	पथ	बरीझाटी आंचल
		342	0.084	रायत	पुक्र पार	अंजलि भौमिक, प्रसन्न कुमार नाग, राज कुमारी शा, सचीन्द्र नाथ घोष, सुनील कुमार घोष, सुबोध चंद्र घोष, कार्तिक शा, सुनेखा धोने, निहार रजन धोने, अनामिका पाल, गीतम कुमार पाल.
		344	0.17	रायत	विती	अतुल पंडित, रीना साह, गोकुल पंडित, जयदेव पंडित, देवेन पंडित, धनजय पंडित, पूर्णचंद्र पंडित, कृष्णचंद्र पंडित, अबीर पंडित
		345	0.002	रायत	बांस बागान	मदन घोष, श्यामसुंदर घोष
		346	0.024	रायत	बांस बागान	राजेन्द्रनाथ चक्रवर्ती
		347	0.06	रायत	डांगा	राजेन्द्रनाथ चक्रवर्ती
		348	0.02	रायत	डांगा	गणेश चक्रवर्ती, गोपाल चक्रवर्ती, जाहरलाल चक्रवर्ती, मधुसूदन चक्रवर्ती, रबीन चक्रवर्ती, लक्ष्मीकांता चक्रवर्ती, सनातन चक्रवर्ती, सुधीर चक्रवर्ती, हरधन चक्रवर्ती.
		349	0.03	रायत	डांगा	गणेश चक्रवर्ती, गोपाल चक्रवर्ती, जाहरलाल चक्रवर्ती, मधुसूदन चक्रवर्ती, रबीन चक्रवर्ती, लक्ष्मीकांता चक्रवर्ती, सनातन चक्रवर्ती, सुधीर चक्रवर्ती, हरधन चक्रवर्ती.
		350	0.03	रायत	डांगा	राजेन्द्रनाथ चक्रवर्ती

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		351	0.098	रायत	डांगा	अजीत चक्रवर्ती और अन्य
		352	0.03	रायत	डांगा	गणेश चक्रवर्ती, गोपाल चक्रवर्ती, जाहरलाल चक्रवर्ती, मधुसूदन चक्रवर्ती, रबीन चक्रवर्ती, लक्ष्मीकांता चक्रवर्ती, सनातन चक्रवर्ती, सुधीर चक्रवर्ती, हरधन चक्रवर्ती.
		353	0.095	रायत	दोबा	गणेश चक्रवर्ती, गोपाल चक्रवर्ती, चंदू चक्रवर्ती, जाहरलाल चक्रवर्ती, मधुसूदन चक्रवर्ती, अजीत चक्रवर्ती, रबीन चक्रवर्ती, राजेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, लक्ष्मीकांता चक्रवर्ती, सनातन चक्रवर्ती, सुजीत चक्रवर्ती, सुधीर चक्रवर्ती, हरधन चक्रवर्ती.
		354	0.03	रायत	बिती	जलधर घोष, कर्नईनाल घोष, जितेन्द्रनाथ घोष
		355	0.009	रायत	बिती	महादेव घोष, जामिनी रंजन घोष, कर्ण कुमार पोलेन, कार्तिक चंद्र बैगई, कर्नई घोष
		357	0.384	रायत	पुक्र	सचीन्द्रनाथ घोष, सुनील कुमार घोष, सुबोध चंद्र घोष, सुलेखा धौले, निहार रंजन धौले, जगन्नाथ घोष.
		358	0.016	रायत	मंदिर	अनिल चक्रवर्ती, गणेश चक्रवर्ती, गोपाल चक्रवर्ती, गौड़मोहन चक्रवर्ती, जाहरलाल चक्रवर्ती, नित्य पद चक्रवर्ती, प्रफुल्लया चक्रवर्ती, देवत्तर श्री श्री पंचानन ठाकुर
		359	0.03	रायत	डांगा	सचीन्द्र नाथ घोष, सुनील कुमार घोष, सुबोध चंद्र घोष.
		360	0.255	रायत	पुक्रपार	सचीन्द्र नाथ घोष, सुनील कुमार घोष, सुबोध चंद्र घोष, संजय पाल, मोमी धौले, मनोज कुमार दास, गौरी दास, जगन्नाथ घोष
		379	0.089	रायत	पय	बरीजहाती आचल
		442	0.02	रायत	पय	बरीजहाती आचल
		443	0.004	रायत	डांगा	पश्चिमी बंगाल सरकार
		444	0.018	रायत	सूना	अशीष कुमार डे सरकार, शदीराम चक्रवर्ती
		912	0.117	रायत	रास्ता	अध्यक्ष, जिला स्कूल बोर्ड, जिला परिषद, हुगली
		974	0.036	रायत	सूना	गोविंद चंद्र अदक, तारक चंद्र अदक, पंचकोरी अदक
		975	0.04	रायत	सूना	मानसराम घोष, पंचानन घोष, परेश घोष, चंडी घोष
		976	0.05	रायत	सूना	चुनीलाल शाई, पुलिन शाई, मदन शाई, मणिमोहन शाई, कार्तिक बेलेल
		977	0.05	रायत	शाली	गदाधर शाई, गोवर्धन शाई, गोपीनाथ शाई, सीतानाथ शाई, लक्ष्मण शाई, रमेश शाई.
		978	0.01	रायत	दोबा	चंदू चक्रवर्ती, अजीत चक्रवर्ती, राजेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, सुजीत चक्रवर्ती
		979	0.031	रायत	सूना	आरती घोष
		981	0.002	रायत	सूना	अनिल घोष.
		982	0.13	रायत	शाली	गोविंद चंद्र अदक, तारक चंद्र अदक, पंचकोरी अदक
		983	0.08	रायत	शाली	किशोरी घोष
		984	0.03	रायत	शाली	गयाराम घोष, शंकर चंद्र घोष, रजनीकांता घोष
		985	0.03	रायत	शाली	अनिल चक्रवर्ती, सुदर्शन चंद्र चक्रवर्ती, सुनील चक्रवर्ती.
		986	0.024	रायत	शाली	शैलेन्द्रनाथ घोष
		1004	0.05	रायत	शाली	जितेन्द्रनाथ घोष, (स्वर्गीय) बलई चरण घोष, रपन बरुआ, गायत्री देवी, निर्मला देवी.
		1005	0.048	रायत	शाली	लक्ष्मण चंद्र पात्रा
		1006	0.097	रायत	शाली	मनोका बाला पोलेन, मदन घोष
		1007	0.07	रायत	शाली	निमई चंद्र घोष, सन्यासी चरण घोष, शम्भुनाथ घोष, आरती घोष, राजू घोष, राजेश घोष
		1011	0.146	रायत	शाली	गौड़मोहन चक्रवर्ती, नित्यपद चक्रवर्ती, प्रफुल्लया चक्रवर्ती.
		1012	0.021	रायत	शाली	राजेन्द्रनाथ चक्रवर्ती
		1013	0.03	रायत	शाली	सुदर्शन चक्रवर्ती
		1052	0.009	रायत	शाली	कार्तिक घोष.
		1053	0.109	रायत	शाली	नित्य चरण घोष, क्षेत्र मोहन घोष
		1056	0.064	रायत	शाली	अमित घोष
		1057	0.071	रायत	शाली	शम्भु नाथ घोष
		1058	0.196	रायत	शाली	पंचानन बेलेल
		1059	0.004	रायत	शाली	छेना घोष, दीपू घोष, पदमा घोष, पारूलबाला घोष, बसंती घोष, जमुना घोष, सुजाता घोष, कानन घोष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1070	0.049	रायत	शाली	अन्नापूरुषोत्तम मदन चौध, जितेन्द्र चौध, हरधन चौध
		1072	0.277	रायत	शाली	चौधरी प्रमाणिक, जगन्नाथ प्रमाणिक, दुलाल चौध प्रमाणिक, अश्वर बाबा प्रमाणिक, मोहित प्रमाणिक
		1073	0.021	रायत	शाली	सज्जनदास चौध
		1075	0.003	रायत	शाली	मनद कुमार चौध
		1076	0.06	रायत	शाली	हेमा चौध, दीप चौध, मिर्झा चौध, पदमा चौध, पारुलबाला चौध, बसन्ती चौध, जमुना चौध, सुजाता चौध, कमल चौध
		1077	0.03	रायत	शाली	हरधन चौध
		1078	0.04	रायत	शाली	व्यवहारिक चौध
		1079	0.03	रायत	शाली	कार्तिक चौध
		1080	0.13	रायत	शाली	हेमा चौध, दीप चौध, बाकुबिहारी चौध, पदमा चौध, पारुलबाला चौध, बसन्ती चौध, जमुना चौध, सुजाता चौध, कमल चौध
		1081	0.018	रायत	शाली	सज्जनदास चौध
		1082	0.084	रायत	शाली	वीरन कृष्ण चौध, चण्डीचरण चौध
		1083	0.027	रायत	शाली	मदन चौध, श्यामसुंदर चौध
		1084	0.012	रायत	शाली	जितेन्द्रनाथ चौध, प्रमिला चौध, प्रमिलाबाला चौध, (स्वर्गीया) कलई चरण चौध, जगन्नाथ चौध, जितेन्द्रनाथ चौध, सरस्वतीबाला मंडल, कमलबाला चौध, सुधीर चौध, सुजन चंद्र चौध, कमलेश्वर चौध, विरवनाथ चौध मंडल, गणेश चौध मंडल, भवानी चौध मंडल
		50/1609	0.052	रायत	शाली	तुलसीचरण शाई
		226/1601	0.133	रायत	दोबा	विश्वेश्वर चौध, जितेन्द्र नाथ चौध
4.	नयती-84	3689	0.018	रायत	सूना	विश्वनाथ चौध, अश्वर चौध, कालीपद चौध, कौशिक चंद्र चौध, जयदेव चौध
		3690	0.019	रायत	सूना	लक्ष्मण पाल
		3691	0.021	रायत	सूना	सारापद पाल
		3692	0.064	रायत	सूना	हरधन पाल
		3693	0.08	रायत	सूना	सचीन्द्र नाथ पाल, हरानी बाला पाल
		3694	0.03	रायत	सूना	पंचकौरी चौध
		3695	0.004	रायत	सूना	प्रहलाद चौध, विजय कृष्ण चौध, भोलानाथ चौध, उचारानी चौध, शोवारानी चौध, सुभद्रा चौध, दुर्गारानी चौध
		3707	0.003	रायत	सूना	मनस राम चौध, संतोष चौध
		3708	0.013	रायत	सूना	अन्ना बाला चौध, मासली पाल, पंचजन चौध
		3709	0.09	रायत	दोबा	सुदर्शन चौध, गोपाल चंद्र कौशर, संतोष पाल
		3709/4540	0.069	रायत	दोबा	परिचामी बंगाल
		3710	0.06	रायत	सूना	श्याम सुंदर कौश
		3711	0.04	रायत	सूना	विष्णुपद चौध, संतोष कुमार चौध
		3712	0.08	रायत	सूना	महेश्वर राम चौध, संतोष चौध
		3713	0.439	रायत	सूना	चंपा चौध, जलधर मंडल, दुर्गारानी पाल, पशुपति पाल
		3714	0.08	रायत	सूना	हिमांशु पाल, कालीपद पाल, जयल कुमार पाल, अनिल पाल, असीत कुमार पाल
		3715	0.074	रायत	पथ	सुनियन बोर्ड, नैयती बाम पंचायत
		3716	0.02	रायत	सूना	संतोष चौध, सैलिया चरण चौध, जलधर चौध, जेपाल चंद्र चौध, पारितोष चंद्र चौध, पशुपति चौध
		3716/4450	0.091	रायत	सूना	संतोष चौध, सैलिया चरण चौध, जलधर चौध, जेपाल चंद्र चौध, पारितोष चंद्र चौध, पशुपति चौध
		3717	0.28	रायत	सूना	कालीपद पाल
		3718	0.182	रायत	सूना	कालीपद पाल
		3719	0.002	रायत	सूना	प्रहलाद चौध, विजय कृष्ण चौध, भोलानाथ चौध, उचारानी चौध, शोवारानी चौध, सुभद्रा चौध, दुर्गारानी चौध
		3723	0.194	रायत	सूना	कालीपद पाल
		3762	0.082	रायत	सूना	कृष्ण चंद्र चौध
		3763	0.069	रायत	सूना	प्रसांत पाल, विश्वेश्वर पाल, महामाया पाल, शंकर पाल, सस्ती राम पाल, सुभात कुमार पाल, काली चरण पाल, परेश चंद्र पाल, रमेश चंद्र पाल, प्रणव कुमार पाल, प्रदीप कुमार पाल, कौशल्या रानी पाल, निरुपमा पाल
		3764	0.09	रायत	बागान	लक्ष्मण चंद्र चौध, चारु चंद्र चौध
		3765	0.08	रायत	सूना	श्यामपद चौध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3767	0.15	रायत	सुना	काली दासी
		3768	0.15	रायत	सुना	आशामता घोष
		3769	0.14	रायत	सुना	गोस्ती विहारी पाल, नित्य पाल
		3770	0.229	रायत	सुना	कालीपद पाल
		3771	0.26	रायत	सुना	बलई चंद्र पाल, बेछा बाला पाल, मदन मोहन घोष, सचीन्द्र नाथ पाल, हरानी बाला पाल, कालीपद पाल, निमई चंद्र पाल
		3772	0.09	रायत	सुना	जोगेश्वर घोष, संतोष घोष, मेनका घोष, विश्वनाथ घोष, मदन घोष, उमरानी घोष, सैमाचरण घोष, नेपाल चंद्र घोष, पारितोष चंद्र घोष
		3773	0.08	रायत	सुना	जतिन पाल, सतीश पाल
		3774	0.044	रायत	सुना	जतिन पाल, सतीश पाल
		3775	0.002	रायत	सुना	जतिन पाल, सतीश पाल
		3776	0.028	रायत	सुना	भदई घोष, हनु चरण घोष
		3777	0.021	रायत	सुना	सतकरी घोष
		3778	0.13	रायत	सुना	बलई चंद्र पाल, बेछा बाला पाल, शिव चंद्र पाल, कालीपद पाल, निमई चंद्र पाल, जीवन कृष्ण पाल, गौड़ चंद्र पाल
		3779	0.073	रायत	सुना	बलई चंद्र पाल, बेछा बाला पाल, सचीन्द्र नाथ पाल, शिव चंद्र पाल, हरानी बाला पाल, कालीपद पाल, निमई चंद्र पाल, जीवन कृष्ण पाल
		3780	0.006	रायत	शाली	जमुना बाला पाल, लक्ष्मण पाल, सत्य पाल, तारा बाला पाल
		3784	0.035	रायत	शाली	विश्वनाथ घोष, जलधर मंडल, जंदारानी मंडल
		3785	0.05	रायत	शाली	लक्ष्मण चंद्र घोष, दशरथी घोष
		3786	0.05	रायत	शाली	सुदर्शन घोष, धनंजय घोष, पन्नालाल घोष
		3787	0.08	रायत	शाली	विश्वनाथ घोष, कालीपद घोष
		3788	0.15	रायत	शाली	अरुण कुमार पाल, परेश चंद्र पाल
		3789	0.06	रायत	शाली	रंजन कुमार पाल, रमेश चंद्र पाल, प्रलय पाल, पलाश पाल, प्रदीप कुमार पाल, तपन कुमार पाल, अरुण कुमार पाल, परेश चंद्र पाल, प्रदीप कुमार पाल, प्रणव कुमार पाल
		3790	0.05	रायत	शाली	रंजन कुमार पाल, प्रलय पाल, पलाश पाल, प्रदीप कुमार पाल, तपन कुमार पाल, अरुण कुमार पाल, परेश चंद्र पाल, प्रदीप कुमार पाल, प्रणव कुमार पाल, रमेश चंद्र पाल
		3791	0.231	रायत	शाली	कालीपद पाल
		3794	0.002	रायत	शाली	श्यामपद घोष
		3795	0.08	रायत	शाली	संतोष घोष, सैला चरण घोष, नेपाल चंद्र घोष, पारितोष चंद्र घोष
		3796	0.011	रायत	शाली	कालीपद पाल
		3797	0.05	रायत	शाली	बकेश्वर पाल, संतोष पाल, ऋषिकेश पाल, दिलीप कुमार पाल, सनातन पाल, प्रवीर कुमार पाल, गायत्री पाल, अंजलि पाल, माधुरी पाल
		3798	0.05	रायत	शाली	कालीपद पाल
		3799	0.05	रायत	शाली	बलई चंद्र पाल, बेछा बाला पाल, ओम पाल, सचीन्द्र नाथ पाल, संध्या पाल, हरानी बाला पाल, काली पद पाल, निमई चंद्र पाल, जीवन कृष्ण पाल, पुष्पा रानी घोष
		3800	0.06	रायत	शाली	भवानी पाल, जतीष चंद्र पाल, रेनुबाला पाल, श्यामा पद पाल, सतीश चंद्र पाल, सुबल पाल, कानन बाला संथा, गौरी बाला घोष, जगदीश चंद्र पाल, जयदेव पाल, ज्योत्सना घोष, नीतीश चंद्र पाल, निमई चंद्र पाल
		3801	0.03	रायत	शाली	जमुना बाला पाल, लक्ष्मण पाल, सत्य पाल, तारा बाला पाल
		3802	0.046	रायत	शाली	चंपा घोष
		3803	0.062	रायत	शाली	आशुतोष पाल, मानस राम पाल, कार्तिक पाल, गणेश चंद्र पाल, गौड़ मोहन पाल
		3804	0.04	रायत	शाली	भद्रेश्वर घोष, मानस राम घोष, मणिक चंद्र घोष, मुक्ताराम घोष
		3805	0.07	रायत	शाली	मृत्युंजय घोष, राधारानी घोष, सुनीलाबाला पाल, कृष्ण मोहन घोष, अनिला बाला पाल, तारा घोष, धनंजय घोष, पन्नालाल घोष
		3806	0.193	रायत	शाली	विश्वनाथ मंडल, जलधर मंडल, दुर्गारानी पाल
		3807	0.018	रायत	शाली	काशीरौदा प्रसाद पाल, आनंद प्रसाद पाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3735/4473	0.455	रायत	मादिर जमीनी	सिंचित विभाग
5.	चंडीताल - 85	59	0.063	रायत	दीबा	कृष्णमयी मुखोपाध्याय, गीतारानी बंधोपाध्याय, बरोपामयी देवी, वासुदेव मुखोपाध्याय, विमल कुमार मुखोपाध्याय, विश्वनाथ मुखोपाध्याय, लक्ष्म चरण मुखोपाध्याय, सुधीर चंद्र मुखोपाध्याय
		74	0.039	रायत	सूना	अजीत कुमार घोष, रंजीत कुमार घोष, सुजीत कुमार घोष.
		75	0.048	रायत	सूना	पुनिन विहारी घोष.
		76	0.038	रायत	सूना	निवारण घोष, बरो घोष, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष.
		77	0.03	रायत	सूना	निवारण घोष, बरो घोष, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष.
		78	0.064	रायत	सूना	दिलीप घोष, बबलू घोष, शंकर घोष, शिव घोष, सतीश घोष, उमाबाला घोष.
		79	0.182	रायत	सूना	मणिम विहारी बंधोपाध्याय
		80	0.04	रायत	दीबा	मणिम विहारी बंधोपाध्याय
		81	0.16	रायत	सूना	अक्षयबाला घोष.
		82	0.044	रायत	सूना	अक्षयबाला घोष.
		85	0.124	रायत	सूना	कृष्णमयी घोष, अजीत कुमार घोष, रंजीत कुमार घोष, स्वर्णमता घोष, सुजीत कुमार घोष.
		86	0.201	रायत	सूना	काशीनाथ घोष, बोराबाला घोष, सतीश घोष
		87	0.008	रायत	सूना	पुनिन विहारी घोष.
		88	0.14	रायत	दीबा	कृष्णमयी घोष, अजीत कुमार घोष, रंजीत कुमार घोष, स्वर्णमता घोष, सुजीत कुमार घोष, काशीनाथ घोष, सतीश घोष, बोराबाला घोष, पुनिन विहारी घोष, निवारण घोष, बरो घोष, मदन मोहन कुमार, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष
		89	0.049	रायत	बागान	कमलारानी दास, जयदेव कुमार, नवकुमार कुमार, निर्मल चंद्र कुमार, अमल चंद्र कुमार, असीत वरुण कुमार, बीनापानी कुमार, मदन मोहन कुमार, सतीश कुमार, सुनील कुमार.
		92	0.06	रायत	शाली	बरो घोष, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष.
		96	0.029	रायत	बास्तु	कृष्णमयी घोष, अजीत कुमार घोष, रंजीत कुमार घोष, स्वर्णमता घोष, सुजीत कुमार घोष.
		97	0.02	रायत	विती	निवारण घोष, बरो घोष, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष, माताबाला घोष
		98	0.06	रायत	सूना	निवारण घोष, बरो घोष, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष.
		99	0.06	रायत	बास्तु	निवारण घोष, बरो घोष, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष.
		100	0.023	रायत	बास्तु	कृष्णमयी घोष, अजीत कुमार घोष, रंजीत कुमार घोष, स्वर्णमता घोष, सुजीत कुमार घोष, काशीनाथ घोष, सतीश घोष, बोराबाला घोष, पुनिन विहारी घोष, निवारण घोष, बरो घोष, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष
		101	0.035	रायत	विती	काशीनाथ घोष, सतीश घोष, बोराबाला घोष,
		102	0.002	रायत	बागान	पुनिन विहारी घोष.
		103	0.05	रायत	बास्तु	पुनिन विहारी घोष.
		104	0.043	रायत	बास्तु	कालीपद घोष, रंजीत कुमार घोष, स्वर्णमता घोष, सुजीत कुमार घोष, माताबाला घोष, काशीनाथ घोष, बरो घोष, विजयबाला दासी, सतीश घोष, पुनिन विहारी घोष, निवारण घोष, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष.
		105	0.015	रायत	विती	कृष्णमयी घोष, अजीत कुमार घोष, रंजीत कुमार घोष, स्वर्णमता घोष, सुजीत कुमार घोष.
		106	0.029	रायत	विती	कालीपद घोष, काशीनाथ घोष, सतीश घोष, आमा रानी घोष.
		107	0.05	रायत	बागान	निवारण घोष, बरो घोष, माताबाला घोष, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष.
		108	0.06	रायत	बास्तु	पुनिन विहारी घोष.
		109	0.06	रायत	बागान	बोराबाला घोष, सतीश घोष
		110	0.07	रायत	बास्तु	निवारण घोष, बरो घोष, मणिकमाल घोष, सैतारानी घोष.
		111	0.07	रायत	बास्तु	कृष्णमयी घोष, अजीत कुमार घोष, रंजीत कुमार घोष, स्वर्णमता घोष, सुजीत कुमार घोष.
		112	0.06	रायत	विती	पुनिन विहारी घोष.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		113	0.04	रायत	बागान	करुणामयी घोष, अजीत कुमार घोष, रंजीत कुमार घोष, स्वर्णलता घोष, सुजीत कुमार घोष.
		114	0.03	रायत	बास्तु	चंदीताला ग्राम पंचायत, अन्नापूर्णा घोष
		115	0.05	रायत	बागान	निवारण घोष, बरो घोष, मणिकलाल घोष, शैलारानी घोष.
		116	0.17	रायत	पुक्कुर	करुणामयी घोष, अजीत कुमार घोष, पिंदू पाल, रंजीत कुमार घोष, सतीश घोष, प्रताप घोष, मणिकलाल घोष, निवारण घोष, ताराबाला घोष, बरो घोष, काशीनाथ घोष, शैलारानी घोष, स्वर्णलता घोष, सुजीत कुमार घोष.
		117	0.193	रायत	बास्तु	अर्जुन देव चट्टोपाध्याय, जयदेव चट्टोपाध्याय, दुलाल पणजी, रवि पंडित, रमानी पांजा, राधानाथ पाल, रामदेव चट्टोपाध्याय, रोहिणी पाल, शक्तिपददेव चट्टोपाध्याय, संध्या पणजी, साहदेव चट्टोपाध्याय, सूर्यदेव चट्टोपाध्याय
		118	0.16	रायत	बास्तु	चंडीताला ग्राम पंचायत, शैलेन्द्रनाथ घोष.
		119	0.063	रायत	दोबा	चारु चंद्र चट्टोपाध्याय, दिलीप चट्टोपाध्याय, अशोक चट्टोपाध्याय, रघुनाथ चट्टोपाध्याय.
		282	0.041	रायत	नाला	पश्चिमी बंगाल सरकार
		306	0.006	रायत	विती	अजीत बंधोपाध्याय, किनकर नाथ बंधोपाध्याय, घंटेस्वर बंधोपाध्याय, अन्नापूर्णा देवी बंधोपाध्याय, शंकर नाथ बंधोपाध्याय, शिव चंद्र बंधोपाध्याय
		308	0.024	रायत	बागान	गोराचादघोष
		309	0.035	रायत	बागान	देवरानी घोष
		310	0.04	रायत	बागान	सीतलामाला ठाकुरानी
		311	0.934	रायत	सूना	गौतम घोष, अन्नापूर्णा देवी बंधोपाध्याय, मेरीरानी घोष, सनातन घोष.
		312	0.06	रायत	विती	केनाराम कर्माकर
		313	0.05	रायत	विती	सचीन्द्रनाथ कर्माकर, शिवनाथ कर्माकर, दीपा कर्माकर, अग्निशेखर कर्माकर, सत्यम कर्माकर, प्रसाद कर्माकर, मोलाना कर्माकर, संध्या कर्माकर, राम चंद्र कर्माकर
		314	0.376	रायत	बास्तु	दिवाकर कर्माकर, जयदेव कर्माकर, द्वारकानाथ कर्माकर, मानसराम कर्माकर, रबीन्द्रनाथ कर्माकर, शैलेन्द्रनाथ कर्माकर, राम चंद्र कर्माकर
		315	0.543	रायत	पुक्कुर	दिवाकर कर्माकर, जयदेव कर्माकर, द्वारकानाथ कर्माकर, मानसराम कर्माकर, रबीन्द्रनाथ कर्माकर, शैलेन्द्रनाथ कर्माकर, राम चंद्र कर्माकर
		316	0.06	रायत	विती	सचीन्द्रनाथ कर्माकर, शिवनाथ कर्माकर, दीपा कर्माकर, अग्निशेखर कर्माकर, सत्यम कर्माकर, प्रसाद कर्माकर, मोलाना कर्माकर, संध्या कर्माकर, बैछाराम कर्माकर, बुद्धदेव कर्माकर, भोलानाथ कर्माकर, मणिक चंद्र कर्माकर, रानी बाला कर्माकर, राम चंद्र कर्माकर, सती बाला दासी.
		317	0.051	रायत	बास्तु	मलिक चंद्र कर्माकर
		318	0.034	रायत	बास्तु	रानीबाला कर्माकर, सतीबाला दासी
		319	0.015	रायत	बास्तु	सचीन्द्रनाथ कर्माकर, शिवनाथ कर्माकर, दीपा कर्माकर, अग्निशेखर कर्माकर, सत्यम कर्माकर, प्रसाद कर्माकर, मोलाना कर्माकर, संध्या कर्माकर, राम चंद्र कर्माकर, भोलानाथ कर्माकर, बुद्धदेव कर्माकर
		322	0.017	रायत	विती	सचीन्द्रनाथ कर्माकर, शिवनाथ कर्माकर, दीपा कर्माकर, अग्निशेखर कर्माकर, सत्यम कर्माकर, प्रसाद कर्माकर, मोलाना कर्माकर, संध्या कर्माकर, राम चंद्र कर्माकर, भोलानाथ कर्माकर, बुद्धदेव कर्माकर, बैछाराम कर्माकर, मणिक चंद्र कर्माकर, रानी बाला कर्माकर, सतीबाला दासी
		324	0.489	रायत	बागान	निवारण घोष, बरो घोष, मणिकलाल घोष, शैलारानी घोष.
		334	0.002	रायत	विती	मेरीरानी घोष
		339	0.002	रायत	बास्तु	कमलाबाला घोष, मणिमोहन घोष.
		340	0.029	रायत	सूना	गोविना पाल, दिवाकर घोष, निमई चंद्र घोष, बुद्धदेव घोष, सुचमा घोष
		341	0.05	रायत	सूना	गोविना पाल, दिवाकर घोष, निमई चंद्र घोष, बुद्धदेव घोष, सुचमा घोष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		342	0.1	रायत	सूना	मोहिता पाल, दिवाकर घोष, निमई चंद्र घोष, बुद्धदेव घोष, सुचमा घोष
		343	0.12	रायत	सूना	निमई चंद्र घोष, गोविंद पाल, दिवाकर घोष, देवराजी घोष, आशोक कुमार घोष, अशोक कुमार घोष, बुद्धदेव घोष, सुचमा घोष
		344	0.13	रायत	कोसा बागान	निमई चंद्र घोष, देवराजी घोष, आशोक कुमार घोष, अशोक कुमार घोष
		345	0.09	रायत	सूना	उपमा घोष
		346	0.07	रायत	विती	गोपाल चंद्र रे, प्रवीर रे, समीर रे, विमल चंद्र पाल, मदन घोष, मनोरंजन घास, श्यामाचरण घोष
		347	0.04	रायत	विती	विमल चंद्र पाल, मनोरंजन घास
		348	0.088	रायत	रास्ता	जिला परिषद, हुगली
		349	0.118	रायत	रास्ता	जिला परिषद, हुगली
		350	0.059	रायत	विती	कनकपद पाल
		360	0.03	रायत	पुक्र	कनिका अष्टाचार्य, अंजन अष्टाचार्य, केया अष्टाचार्य, कृष्णधन अष्टाचार्य, जयंत बंधोपाध्याय, अनूप कुमार अष्टाचार्य, नंदारानी बंधोपाध्याय, प्रताप बंधोपाध्याय, प्रभात अष्टाचार्य, प्रवीर चंद्र बंधोपाध्याय, बसई अष्टाचार्य, मदनमोहन अष्टाचार्य, रामा अष्टाचार्य, राधारानी बंधोपाध्याय, ललित अष्टाचार्य, अजय अष्टाचार्य, श्यामल अष्टाचार्य, इंदु अष्टाचार्य, सतीश अष्टाचार्य, सर्वणी अष्टाचार्य
		361	0.092			कनिका अष्टाचार्य, अंजन अष्टाचार्य, केया अष्टाचार्य, कृष्णधन अष्टाचार्य, जयंत बंधोपाध्याय, अनूप कुमार अष्टाचार्य, नंदारानी बंधोपाध्याय, प्रताप बंधोपाध्याय, प्रभात अष्टाचार्य, प्रवीर चंद्र बंधोपाध्याय, बसई अष्टाचार्य, मदनमोहन अष्टाचार्य, रामा अष्टाचार्य, राधारानी बंधोपाध्याय, ललित अष्टाचार्य, अजय अष्टाचार्य, श्यामल अष्टाचार्य, इंदु अष्टाचार्य, सतीश अष्टाचार्य, सर्वणी अष्टाचार्य
		362	0.327	रायत	पुक्र	श्यामश्री दास, गीतारानी बंधोपाध्याय
		363	0.02	रायत	पुक्रपार	जयंत बंधोपाध्याय, नंदारानी बंधोपाध्याय, प्रताप बंधोपाध्याय, प्रवास बंधोपाध्याय, राधारानी बंधोपाध्याय
		364	0.01	रायत		गीता रानी बंधोपाध्याय
		365	0.79	रायत	बागान	कार्तिक चरण अष्टाचार्य, कृष्णधन अष्टाचार्य, बबन अष्टाचार्य, विश्वनाथ अष्टाचार्य, विष्णुपद पाल, विष्णुपद अष्टाचार्य, राम चंद्र अष्टाचार्य, लक्ष्मण चंद्र अष्टाचार्य
		366	0.22	रायत	बास्तु	कृष्णधन अष्टाचार्य, अश्विनी कुमार चटोपाध्याय
		368	0.003	रायत	बागान	जयंत बंधोपाध्याय, प्रताप बंधोपाध्याय, प्रवास बंधोपाध्याय, राधारानी बंधोपाध्याय
		369	0.16	रायत	बागान	सुशील अष्टाचार्य, मलय अष्टाचार्य, निहारबाला अष्टाचार्य
		370	0.04	रायत	बागान	जयंत बंधोपाध्याय, प्रताप बंधोपाध्याय, प्रवास बंधोपाध्याय, राधारानी बंधोपाध्याय, शक्तिपदपद चटोपाध्याय, श्यामल सेनगुप्ता
		371	0.04	रायत	बागान	सुशील अष्टाचार्य, मलय अष्टाचार्य, निहारबाला अष्टाचार्य
		372	0.01	रायत	मैदाना	जयंत बंधोपाध्याय, प्रताप बंधोपाध्याय, प्रवास बंधोपाध्याय, राधारानी बंधोपाध्याय
		373	0.13	रायत	बास्तु	हासी चक्रवर्ती, शंकरप्रसाद चक्रवर्ती, श्यामल सेनगुप्ता
		404	0.108	रायत	पथ	चांदीतला नाम पंचायत
		413	0.148	रायत	पुक्र	कनक मुखोपाध्याय, मुरारीमोहन बैनजी, श्याममोहन बैनजी, गोपीमोहन बैनजी, संध्या चटर्जी, देवनाथ बंधोपाध्याय, निर्मल चंद्र बंधोपाध्याय, महामहजी देवी बंधोपाध्याय, सुमित्रा चटोपाध्याय, सुशील कुमार घोष, सुशील चंद्र बंधोपाध्याय
		414	0.57	रायत	पुक्र	कनक मुखोपाध्याय, छविरानी घोष, मुरारीमोहन बैनजी, लक्ष्मण चंद्र घोष, श्याममोहन बैनजी, गोपीमोहन बैनजी, संध्या चटर्जी, देवनाथ बंधोपाध्याय, निर्मल चंद्र बंधोपाध्याय, महामहजी देवी बंधोपाध्याय, सुमित्रा चटोपाध्याय, सुशील चंद्र बंधोपाध्याय
		415	0.1	रायत	मंदिर	सीतलामाता मंदिर, तारापद चक्रवर्ती

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		416	0.12	रायत	विती	विश्वनाथ घोष, मदन घोष, नन्दीबाबा घोष, श्यामाचरण घोष, सीतलामाता ठाकुरानी.
		417	0.1	रायत	विती	करुणामयी घोष, सरथ मुखर्जी, अजीत कुमार घोष, रंजीत कुमार घोष, स्वर्णलता घोष, सुजीत कुमार घोष, काशीनाथ घोष, बोराला घोष, सतीश घोष, निवारण घोष, बरो घोष, मणिकलाल घोष, शैलारानी घोष.
		418	0.14	रायत	बास्त	दिलीप कुमार रे.
		419	0.276	रायत	सूना	अजय कुमार घोष, निर्मल घोष, निमई घोष, इंदुबाला दासी, सवित्रीबाबा घोष.
		420	0.054	रायत	कालाबागान	विजयबाला घोष
		421	0.07	रायत	दोबा	करुणामयी घोष, मालाबाला घोष, आभारानी घोष, अजीत कुमार घोष, रंजीत कुमार घोष, स्वर्णलता घोष, सतीश घोष, पुलिन बिहारी घोष, निवारण घोष, बरो घोष, मणिकलाल घोष, शैलारानी घोष.
		422	0.07	रायत	विती	प्रतापआदित्य चक्रवर्ती, कालीपद घोष, काशीनाथ घोष, आभारानी घोष.
		423	0.015	रायत	सूना	निर्मल घोष, निमई घोष, इंदुबाला दासी, सवित्री बाला घोष
		508	0.141	रायत	शाली	ललितमोहन पाल, उमाबाला घोष
		509	0.071	रायत	सूना	तोमल दत्ता, बापी सेनगुप्ता, विश्वनाथ घोष.
		519	0.039	रायत	रास्ता	जिना परिषद, हुगली
		524	0.464	रायत	सूना	रेखादेवी सहो, मैसर्स दानकुनी इंफ्रास्ट्रक्चर, कृष्णधन घोष, कृष्ण डे, तुस्तू चरण घोष, बांकू बिहारी घोष, असीम कुमार घोष, अंगूरबाला घोष, मनोरंजन घोष
		525	0.017	रायत	विती	पश्चिमी बंगाल
		526	0.023	रायत	विती	तारापद चक्रवर्ती, अपराजिता घाटक, मदन चक्रवर्ती, रबीन्द्रनाथ चक्रवर्ती
		527	0.426	रायत	बागान	बिमल कुमार दास, निर्मल कुमार दास, जयश्री अदक, केशव चंद्र दास प्रमाणिक, तुलसी चरण दास, भूपेन्द्र नाथ दास, मदनमोहन दास, जुगल चंद्र दास प्रमाणिक, श्यामसुंदर प्रमाणिक, उपेन्द्रनाथ दास प्रमाणिक,
		528	0.244	रायत	शाली	गीतारानी बंधोपाध्याय
		529	0.102	रायत	शाली	गीतारानी बंधोपाध्याय
		530	0.031	रायत	शाली	गीतारानी बंधोपाध्याय
		590	0.011	रायत	शाली	उत्तम घोष
		591	0.2	रायत	शाली	रत्न घोष
		592	0.05	रायत	सूना	तुलसी चरण दास, फणिभूषण प्रमाणिक, उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक
		325/1262	0.128	रायत	सूना	राकेश कुमार घोष, सुषमा घोष, कालीपद पाल, केशटो चंद्र पाल, निरुपमा पाल, प्रसंय कुमार पाल, विश्वेश्वर पाल, सस्तीराम पाल, सुसांत पाल.
		325/1263	0.308	रायत	सूना	अनिल कुमार घोष, परेश घोष
		325/1264	0.39	रायत	सूना	काली चरण घोष
		325/1265	0.39	रायत	सूना	गोविंद पद घोष
		325/1266	0.24	रायत	सूना	अनिल कुमार घोष, परेश घोष, बसंती घोष.
		325/1268	0.086	रायत	सूना	सनातन घोष, गौतम घोष, भीम चंद्र घोष, रबीन्द्रनाथ घोष
		325/1269	0.004	रायत	सूना	गोविंद पद घोष
6.	कलछारा-54	37	0.026	रायत	शाली	अब्दुल माकिम मलिक, सोमनाथ सरकार, जयवती सरकार, देवनाथ सरकार, संदीप भुआल्का
		39	0.015	रायत	शाली	देवनाथ सरकार
		152	0.015	रायत	शाली	मिलन चंद्र मंडल, अकल मंडल, जलधर मंडल.
		153	0.054	रायत	शाली	मृत्युंजयमाझी, दयामय माझी, धनंजय माझी, परेश नाथ माझी.
		157	0.103	रायत	शाली	कृष्ण चंद्र घोष.
		159	0.152	रायत	शाली	सुरबाला घोष.
		160	0.169	रायत	शाली	जमशेद अली हल्दार.
		161	0.438	रायत	शाली	मनीन्द्र नाथ डे, गौड़मोहन डे, नित्य चंद्र डे, बैद्यनाथ डे.
		162	0.201	रायत	नाला	बांकूबिहारी घोष.
		163	0.395	रायत	बाध	पश्चिमी बंगाल सरकार
		189/1160	0.009	रायत	सूना,	विश्वरंजन सेन, सर्वरंजन सेन, केशवरंजन सेन, नित्यरंजन सेन, हरधन घोष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		191	0.038	रायत	शाली	बेछाराम सेन, शेख कबीर मोहम्मद.
		191/1187	0.165	रायत	शाली	माधुरमोहन सेन.
		192	0.3	रायत	शाली	सुदर्शन घोष, पंचामन सेन
		193	0.93	रायत	शाली	सहायबाला घोष, सेकाली घोष.
		194	0.781	रायत	शाली	रामनन्दी दत्ता, विमोती कर्माकर.
		195	0.761	रायत	शाली	माहोती घोष, आशुतोष घोष, पारितोष घोष.
		196	0.503	रायत	शाली	बिस्वरजन सेन, सर्वरजन सेन, केशवरजन सेन, मित्ररजन सेन.
		199	0.029	रायत	शाली	उपेन्द्रनाथ सेन.
		200	0.71	रायत	शाली	मानसपद दारी, लंकर चंद्र दारी.
		201	0.086	रायत	शाली	अर्चन्द् बाबू, सुबेन्द् नाथ बाबू, लक्ष्म बाबू, लक्ष्म बाबू, अर्चन् चंद्र बाबू, अर्चन् बाबू
		202	0.413	रायत	शाली	मानसपद दारी, लंकर चंद्र दारी, कालीनाथ सेन, मोक्षचन सेन, पद्ममति सेन.
		203	0.389	रायत	शाली	उपेन्द्र नाथ सेन.
		204	0.079	रायत	शाली	शेख अमीर अली, मनोरम झांग, मनोरजन झांग, रसबिहारी झांग, कमलाबाला झांग, स्मिरन झांग, कल्याणी झांग, शेख इदरिश अली, बिस्वरजन झांग, अबनी मोहन झांग, जगेश्वर झांग, दिगम्बर झांग, बालीबाला झांग, पुरनन्द झांग, शेख कबीर मोहम्मद, विमला झांग.
		210	0.023	रायत	शाली	कार्तिक झांग.
		212	0.11	रायत	शाली	फकतुबी दारी
		213	0.18	रायत	शाली	उपेन्द्र नाथ सेन.
		213/3363	0.044	रायत	शाली	पंचामन सेन
		214	0.63	रायत	शाली	हरिहर स्वर्णकर, हनुम चंद्र स्वर्णकर, कालीनाथ स्वर्णकर, शिवतीरमोहन स्वर्णकर, मोक्षिंद चंद्र स्वर्णकर, अनन्दीनाथ स्वर्णकर, तीनकोटी स्वर्णकर.
		215	0.037	रायत	बांध	चविचमी बंगाल सरकार
		216	0.592	रायत	शाली	महादेव चंद्र सेन, सीतल चंद्र सेन.
		217	0.002	रायत	शाली	वीनापानी साकर
		218	0.571	रायत	शाली	बेछाराम सेन, शेख सहजमन पट्टर, कमलाबाला डे.
		224/3379	0.094	रायत	शाली	उपेन्द्र नाथ सेन.
		434	0.037	रायत	मुला	अबनीमोहन झांग
		435	0.037	रायत	बांध	तोताराम मलिक, प्रसन्ना कुमार मलिक
		498	0.011	रायत	शाली	मदन मोहन घोष, कमलाबाला घोष, हरधन घोष, धरानी धार घोष
		499	0.169	रायत	शाली	दानकुजी इकास्ट्रचर, अर्चिनी कुमार सामंत.
		500	0.588	रायत	शाली	दानकुजी इकास्ट्रचर, साधन चंद्रमूर्ति, मनमथ माधमूर्ति, दीनबंधु अष्टाचार्य.
		501/3370	0.395	रायत	शाली	दानकुजी इकास्ट्रचर, मेनकाबाला घोष.
		504	0.174	रायत	शाली	अन्नापुणी दासी
		505	0.096	रायत	शाली	हरधन मंडल.
		508	0.023	रायत	शाली	कालीपद घोष, गौड़ मोहन घोष, जयदेव घोष.
		509	0.014	रायत	शाली	सरोज कुमार घोष, खगेन्द्रनाथ घोष, गौड़ मोहन घोष.
		511	0.072	रायत	शाली	मधुसूदन मंडल, महादेव मंडल, मानसराम मंडल, स्वप्न कुमार मंडल, सबीता दास, गौड़ मंडल, विभूति भूषण मंडल.
		512	0.225	रायत	शाली	रत्नमपद घोष
		513	0.205	रायत	शाली	महादेव मंडल.
		514	0.034	रायत	शाली	केशरी चंद्र मन्जा, चारु चंद्र मन्जा, जीवन कृष्ण मन्जा
		538	0.077	रायत	शाली	सनातन घोष, लक्ष्म कान्ति घोष, अशोक कुमार घोष.
		667	0.173	रायत	शाली	केशरी चंद्र घोष, चारु चंद्र घोष
		668	0.264	रायत	शाली	पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा.
		669	0.014	रायत	शाली	पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा.
		670	0.11	रायत	शाली	पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा.
		671	0.11	रायत	शाली	पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा.
		672	0.142	रायत	शाली	पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा.
		673	0.065	रायत	शाली	पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा.
		674	0.176	रायत	शाली	भोमानाथ घोष, रसमणि घोष, सनितमोहन घोष, कनई घोष, निर्मल कुमार बोस, वातकृष्ण घोष, बांकू बिहारी घोष, बासुदेव घोष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		677	0.069	रायत	शाली	पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा., महादेव मंडल, मीड़ मंडल.
		678	0.179	रायत	शाली	अंकुल माल, पचानन माल.
		876	0.023	रायत	शाली	पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा.
		879	0.027	रायत	शाली	चंदेश्वर घोष, आनंद प्रसाद घोष, दत्तशर्मा घोष.
		880	0.094	रायत	शाली	मैसर्स पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा.
		881	0.214	रायत	शाली	मैसर्स पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा.
		882	0.027	रायत	शाली	मैसर्स पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा., कलाचंद पाल, विभूति पाल, युधिष्ठिर पाल, गोविंद पाल, मेनका पाल.
		911	0.294	रायत	शाली	मैसर्स पेसमन सेन्स प्रमोशन प्रा.
		912	0.086	रायत	शाली	गदाधर बोराल, प्रसाद चंद्र बोराल.
		913	0.096	रायत	शाली	रवीन्द्रनाथ पाल
		914	0.170	रायत	शाली	रवीन्द्रनाथ पाल, मिहिरमाल पाल.
		915	0.035	रायत	शाली	रवीन्द्रनाथ पाल, मिहिरमाल पाल.
		916	0.389	रायत	शाली	शिवप्रसाद पाल
		917	0.181	रायत	शाली	सचीन्द्र नाथ मन्ना, सुनील कुमार मन्ना, सुष्टिधर मन्ना, पतित पवन मन्ना.
		918	0.332	रायत	शाली	सुबोधबाला बोराल
		919	0.03	रायत	दोबा	सुबोधबाला बोराल, सचीन्द्र नाथ मन्ना, सुनील कुमार मन्ना, सुष्टिधर मन्ना, पतित पवन मन्ना.
		941	0.03	रायत	दोबा	बंशी घोष, गोवर्धन घोष, हरधन घोष.
		942	0.029	रायत	बामन	बंशी घोष, गोवर्धन घोष, हरधन घोष.
		943	0.043	रायत	बामन	शिवप्रसाद पाल, दत्तशर्मा घोष, पचानन पाल
		945	0.025	रायत	दोबा	विश्वनाथ बोराल, राजकुमार बोराल, तपन कुमार बोराल
		946	0.051	रायत	सूना	सेफालीबाला बोराल, परेश बोराल
		950	0.03	रायत	दोबा	सेफालीबाला बोराल, परेश बोराल
		951	0.2	रायत	सूना	जयदेव बोराल.
		1079	0.055	रायत	बांध	परिचमी बंगाल सरकार
		2302	0.021	रायत	शाली	सतकारी घोष
		2303	0.295	रायत	शाली	कनईलाल घोष, विश्वमोयी दासी.
		2304	0.318	रायत	शाली	कार्तिक घोष, अजय कुमार घोष, मणेश चंद्र घोष, अजीत कुमार घोष, जयदेव घोष, विजयकृष्ण घोष.
		2370	0.152	रायत	शाली	प्रहलाद कुमार गुप्ता.
		2371	0.029	रायत	सूना	विश्वनाथ घोष, तमल दत्ता, बापी सेनगुप्ता.
		2372	0.1	रायत	सूना	विश्वनाथ घोष, तमल दत्ता, बापी सेनगुप्ता.
		2373	0.1	रायत	सूना	विश्वनाथ घोष, तमल दत्ता, बापी सेनगुप्ता.
		2374	0.002	रायत	सूना	ध्रुव नारायण दत्ता, उज्जाल डे, छविरानी चक्रवर्ती
		2375	0.258	रायत	सूना	विश्वनाथ घोष, तमल दत्ता, बापी सेनगुप्ता. उज्जाल डे
		2376	0.138	रायत	सूना	विश्वनाथ घोष, तमल दत्ता, बापी सेनगुप्ता.
		2567	0.118	रायत	रेल रास्ता	परिचमी बंगाल सरकार
		2603	0.158	रायत	शाली	एस.के.बी. एजेंसी प्रा., धीरेन्द्र नाथ मैबती, दीनबन्धु भट्टाचार्य
		2604	0.059	रायत	शाली	एस.के.बी. एजेंसी प्रा.
		2605	0.321	रायत	शाली	महादेव पाल
		2693	0.031	रायत	सूना	कृष्ण चंद्र बराल
		2694	0.106	रायत	सूना	सबीताबाला पाल, बादल चंद्र पाल
		2695	0.07	रायत	सूना	विश्वनाथ बराल.
		2696	0.051	रायत	सूना	तपन कुमार बराल
		2698	0.071	रायत	सूना	बाक बिहारी घोष.
		2699	0.272	रायत	सूना	भोलानाथ घोष, रसमणि घोष, ललितमोहन घोष, कनई घोष, निर्मल कुमार बोस, वातकृष्ण घोष, बांकबिहारी घोष, बासुदेव घोष.
		2702	0.027	रायत	शाली	मिहिरलाल पाल, पातालबाला दासी.
		2712	0.088	रायत	शाली	श्रीकांत दास
		2713	0.069	रायत	शाली	तपन कुमार बराल
		2714	0.08	रायत	शाली	राखोबाला पाल, सुशीला बाला पाल, अंकुल माल, पचानन माल.
		2715	0.067	रायत	शाली	राजकुमार बराल, तपन कुमार बराल.
		2716	0.064	रायत	सूना	शंकर नाथ बराल, शिवनाथ बराल, गोविंद चंद्र बराल, मदनमोहन बराल, गदाधर बराल, प्रसाद बराल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2717	0.07	रायत	सूना	शंकरनाथ बाबा, शिवनाथ बाबा, मोहिंद चंद्र बराल
		2719	0.216	रायत	सूना	हरधन घोष
		2736	0.135	रायत	शाली	मैसूर कोहिनूर साहिब शा.
		2738	0.118	रायत	सूना	सुकमार बाबा
		2739	0.097	रायत	सूना	बाबू बिहारी घोष.
		2753	0.142	रायत	शाली	भोलानाथ घोष, मणिमोहन घोष, विवेकानाथ घोष, नीतीश रंजन घोष
		2758	0.004	रायत	शाली	मिहिरनाथ बाबा, मेघनाथ पाम, इसानी चंदरप्रसाद, निमई चंद्र घोष, पातालबाला दासी
		2759	0.196	रायत	शाली	संतोष घोष
		2760	0.047	रायत	शाली	बाबू बिहारी घोष.
		2761	0.061	रायत	शाली	कमला बाई, विष्णुपद बाबा, जयंती बाबा, श्रीकांत दास
		2762	0.004	रायत	शाली	सूर्य बराल
		2763	0.062	रायत	शाली	कृष्ण चंद्र बराल
		2766	0.086	रायत	शाली	भोलाबाई घोष, मणिमोहन घोष, विवेकानाथ घोष, जितेंद्रनाथ घोष, नीतीश रंजन घोष
		2767	0.08	रायत	शाली	विश्वनाथ बाबा
		2768	0.192	रायत	शाली	संतोष घोष.
		2772	0.172	रायत	शाली	हरधन घोष, कलाचंद घोष, पद्मानन घोष.
		2808	0.271	रायत	शाली	परिचमी बाबा, सूर्य बाबा
		2818	0.002	रायत	शाली	गोपाल चंद्र प्रकाश
		2819	0.016	रायत	शाली	गोपाल चंद्र प्रकाश
		2920	0.019	रायत	शाली	वृंदाबाई बाई
		2921	0.019	रायत	शाली	सुकुमार बाबा
		2922	0.16	रायत	शाली	राजिंद अली बाबा, सूर्यकुमार अली इन्द्रावर, मंताफ अली इन्द्रावर
		2923	0.177	रायत	शाली	दीनबन्धु बाबा
		2934	0.01	रायत	शाली	देवा भावाचार्य
		2935	0.311	रायत	सूना	समगोपाल मित्रा, अश्विना मित्रा, असीम कुमार मित्रा, सुकमा बाई, असीम कुमार मित्रा, निमई चंद्र मित्रा
		2936	0.027	रायत	शाली	पद्मबाला दासी
		2937	0.108	रायत	शाली	विश्वनाथ घोष, तमल हस्ता, नीरपद घोष, कल्याण घोष, कपी सेनगुप्ता
		2938	0.284	रायत	शाली	सुरेन चंद्र घोष, बरधन चंद्र घोष, तनवी पाल, पद्मालोचन बाई, बरधन चंद्र घोष, संतोष घोष.
		2955	0.286	रायत	शाली	हेमंत प्रकाश, फकीर चंद्र घोष, कल्याण बाबा
		2975	0.177	रायत	शाली	मदनमोहन घोष, मानस घोष, साधन घोष, मनाधर घोष, गदाधर घोष, सुबुज घोष, राजू घोष, संतोष घोष, अर्जुन घोष, अरुण घोष, अनूप घोष, आनंद घोष, श्रीकांत साधुबाबा, मनम साधुबाबा, सुकांत कोने, सुनील कोने, अजीता कोने, कला कोने, प्रसन्न घोष, जानकी कान्ता घोष
		2976	0.088	रायत	बांस बागान	भारत चंद्र घोष, मनमोहन घोष, संतोष कुमार घोष, श्री मोहन घोष, तारकबाला बाबा, बाबू बिहारी घोष.
		2979	0.301	रायत	बांस बागान	प्रणव कुमार बाबा, गोपीनाथ घोष, निधुराम बाबा, हरीदास घोष, सब घोष, रत्न ज्योति, अमोजीत पाल, मिश्र चंद्र पाल, विश्वजीत पाल, अनिता पाल, स्वप्न माझी, असीत कर्माकर, झरना कर्माकर, सुकुमार बाई, सुमित्रा मोदक, शिखा घोष, देव कुमार मन्ना, सुनील मन्ना, सखीता रे, धनजय घोष.
		2980	0.05	रायत	बांस बागान	अर्धेन्द्र बाई, सुखेन बाई, तपन बाई, तरुण बाई, अरुण चंद्र बाई, अरविंद बाई
		2983	0.148	रायत	दोबा	निमई चंद्र घोष, फकीर चंद्र घोष, बरधन चंद्र घोष.
		2984	0.288	रायत	सूना	विश्वनाथ घोष.
		2986	0.118	रायत	बांस बागान	विश्वनाथ घोष.
		2987	0.011	रायत	बांस बागान	मदन कुमार बाई, श्याम चंद्र बाई, ध्रुव बाई
		2988	0.011	रायत	बांस बागान	वृंदावन बाई
		2989	0.011	रायत	बांस बागान	विष्णु बाई, भीष्म बाई.
		3023	0.276	रायत	सूना	काशीनाथ मंडल, कमला मंडल, सुफन मंडल, नयकमार मंडल
		3024	0.035	रायत	सूना	किशोरीमोहन मंडल, काशीनाथ मंडल, कमला मंडल, सुफन मंडल, नयकमार मंडल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3025	0.089	रायत	सूना	भूपेन चंद्र घोष, सतीश चंद्र घोष, सनातन घोष, सोनारानी घोष, गोवर्धन घोष, गौराचंद घोष, जगन्नाथ घोष, पदमालोचन बोस, बलई चंद्र घोष.
		3026	0.16	रायत	बागान	भवेन्द्र प्रमाणिक, मदन मोहन दास प्रमाणिक, जुगल चंद्र प्रमाणिक, उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, श्यामसुंदर प्रमाणिक, केशव चंद्र दास प्रमाणिक, फणिभूषण प्रमाणिक.
		3027	0.16	रायत	बागान	भद्रेश्वर प्रमाणिक, दिलीप दास, अशोक कुमार दास प्रमाणिक, अंगूर बाला दासी.
		3028	0.249	रायत	सूना	किशोरी मोहन मंडल, प्राणकृष्ण मंडल.
		3029	0.003	रायत	सूना	बिश्वनाथ पाल, शम्भेन्द्र कुमार, कृष्ण साधुदान.
		3030	0.077	रायत	सूना	बिश्वनाथ पाल, दीपक कोले, गौतम बैनर्जी, पंकोजिनी पाल.
		3031	0.094	रायत	सूना	सुलता मंडल, सम्पा दास, गौतम बैनर्जी, पंकोजिनी पाल.
		3032	101	रायत	सूना	सुलता मंडल, पंकोजिनी पाल, शिखा घोष, लक्ष्मण चंद्र घोष.
		3038	0.03	रायत	पथ	6 नं. चांदीताल युनियन बोर्ड, कलछारा
		3046	0.008	रायत	बागान	किशोरी मोहन मंडल
		3047	0.023	रायत	बागान	किशोरी मोहन मंडल
		3053	0.003	रायत	सूना	उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, दिलीप कुमार अदक
		3054	0.035	रायत	सूना	उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, दिलीप कुमार अदक
		3055	0.029	रायत	सूना	उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, दिलीप कुमार अदक
		3056	0.098	रायत	सूना	फणिभूषण प्रमाणिक.
		3067	0.13	रायत	सूना	भवेन्द्र नाथ प्रमाणिक, मदन मोहन दास प्रमाणिक, जुगल चंद्र प्रमाणिक, उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, श्यामसुंदर प्रमाणिक, केशव चंद्र दास प्रमाणिक, फणिभूषण प्रमाणिक.
		3058	0.029	रायत	सूना	उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, फणिभूषण प्रमाणिक
		3059	0.027	रायत	सूना	उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, फणिभूषण प्रमाणिक
		3060	0.049	रायत	सूना	उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, फणिभूषण प्रमाणिक
		3061	0.148	रायत	सूना	उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, फणिभूषण प्रमाणिक
		3062	0.11	रायत	सूना	उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, फणिभूषण प्रमाणिक
		3063	0.05	रायत	सूना	उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, फणिभूषण प्रमाणिक
		3064	0.017	रायत	सूना	उपेन्द्र नाथ दास प्रमाणिक, फणिभूषण प्रमाणिक
		3068	0.282	रायत	सूना	कमलाबाला दासी.
		2713/3078	0.1	रायत	शाली	श्रीकांत दास
		2303/3087	0.02	रायत	शाली	सतकोरी घोष.
		2542/3137	0.26	रायत	रास्ता	पश्चिमी बंगाल सरकार

[फा. सं. 2010/डब्ल्यू-2/ईआर/एनएल/03-स्पेशल रेल प्रोजेक्ट]

विनय सिंह, कार्यपालक निदेशक/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2011

S.O. 2077(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2592(E), dated the 19th October, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 19th October, 2010 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Dankuni-Furfura Sharif (20 Km.) New Line from chainage km 1.210 to 7.404, in the district of Hooghly in the State of West Bengal ;

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers, namely, The Times of India (English Edition), Sanmarg (Hindi Edition), Dainik Vishwamitra (Hindi Edition), dated the 6th December, 2010, Telegraph (English Edition), Sangbad Pratidin (Bengali Edition), Dainik Statesman (Bengali Edition), Akhbar-e-Mashriq (Urdu Edition), dated 7th Decemner, 2010 and Bartman (Bengali Edition) dated the 8th December, 2010 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, 378 (Three hundred and seventy eight) number of objections were received and same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure, for the proposed Special Railway Project, namely, Dankuni - Furfura Sharif (20Km.) New Line from Chainage 1.210 Km. to 7.404 Km. in the district of Hoogly in the State of West Bengal.

Serial Number	Name of Village	Latest Revenue Plot Number	Area (In Acres)	Type of Land	Nature of Land	Name of the Owner/interested person of land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kalipur -99	347	0.023	Rayat	Sali	Milan Chandra Ray, Munna Lalaji Rao.
		348	0.085	Rayat	Sali	Kantidebi Gupta, Ram Balak Paswan, Paramila Chandra Dey, Amulyadhan Gupta, Ratan Acharaya, Laxmi Kanta Ghoroui, Krishna Chandra Gupta, Rajendra Prasad Gupta.
		349	0.02	Rayat	Sali	Tinkori Bag
		350	0.029	Rayat	Sali	Mala Debi, Sumita Debi, Sulo Debi, Jally Acharya, Judhistir Das, Laxmirani Das, Shyamali Pal, Usharani Pain, Kanai Das, Renu Roy, Nitai Roy, Manju Debi, Omprakash Sharma
		353	0.038	Rayat	Sali	Ganesh Pramanik, Sangita Sau, Sk. Fajle Karim Molla, Manasa Paramanik
		355	0.038	Rayat	Sali	Hareram Mahato, Basudeb Koley
		396	0.02	Rayat	Sali	Bijay Das, Manasaram Das, Milan Chandra Ray, Shambhu Das, Subala Das, Kashinath Das.
2.	Gobra -92	482	0.023	Rayat	Sali	Indubhusan Ghosh, Hrishikesh Ghosh
		484	0.122	Rayat	Suna	Mangaichandi Ghosh, Nandarani Ghosh, Mamata Ghosh, Ganesh Ghosh, Namita Ghosh, Gopi Ghosh, Tapan Ghosh, Rajani Ghosh, Shambhu Ghosh
		485	0.158	Rayat	Suna	Jugalkrishna Ghosh.
		486	0.183	Rayat	Suna	Mahimohan Ghosh, Chaina Das, Nityananda Ghosh, Bhupendra Ghosh, Satya Ghosh, Hemanta Ghosh.
		487	0.044	Rayat	Danga	Jugalkrishna Ghosh.
		530	0.075	Rayat	Sali	Jotindranath Mandal.
		534	0.018	Rayat	Suna	Nagenchandra Baduri.
		535	0.06	Rayat	Suna	Manasaram Baduri, Ajit Baduri, Kartick Baduri, Ganesh Baduri, Paran Baduri, Astubala Baduri, Bechubala Baduri.
		536	0.092	Rayat	Suna	Tarapada Ghosh.
		537	0.068	Rayat	Suna	Kshetra Pal, Nitai Pal.
		538	0.06	Rayat	Suna	Manasaram Baduri, Ajit Baduri, Kartick Baduri, Ganesh Baduri, Paran Baduri, Astubala Baduri, Bechubala Baduri.
		539	0.035	Rayat	Suna	Manasaram Baduri, Ajit Baduri, Kartick Baduri, Ganesh Baduri, Paran Baduri, Astubala Baduri, Bechubala Baduri.
		540	0.008	Rayat	Suna	Rabindranath Pal.
		540/1708	0.02	Rayat	Suna	Jogesh Pal, Shaktipada Pal, Shasadhar Pal
		541	0.033	Rayat	Suna	Pasupati Pal.
		541/1709	0.030	Rayat	Suna	Asit Kr. Pal, Mrityunjay Pal, Upendra Pal
		542	0.04	Rayat	Suna	Muktaram Baduri.
		543	0.024	Rayat	Suna	
		543	0.024	Rayat	Suna	Manasaram Baduri, Ajit Baduri, Kartick Baduri, Ganesh Baduri, Paran Baduri, Astubala Baduri, Bechubala Baduri.
		544	0.066	Rayat	Rayat	Jyotirmay Pal, Gobinda Pal, Swapan Kumar Pal, Satya Narayan Pal, Gour Chandra Pal.
		545	0.05	Rayat	Suna	Rabindranath Pal.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		547	0.04	Rayat	Suna	Kiranmoy Pal, Krishna Prasad Pal, Jayshree Sau, Bhabani Prasad Pal.
		548	0.03	Rayat	Sali	Sufal Baduri
		549	0.17	Rayat	Sali	Gobinda Ghosh, Bijay Ghosh, Anil Kr. Ghosh.
		550	0.006	Rayat	Sali	Dwarikanath Ghosh.
		550/1710	0.003	Rayat	Sali	Tarak Ghosh, Haripada Ghosh.
		554	0.107	Rayat	Sali	Ajit Kr. Ghosh, Dinanath Ghosh, Jaydeb Ghosh, Balidyanath Ghosh
		644	0.359	Rayat	Sali	Joy, Angurbala Hauli, Shaktipada Pal, Sashadhar Pal, Jogesh Chandra Pal, Pratima Rani Nayek, Saraswati Negal, Rekha Ray, Anjali Banduri
		645	0.006	Rayat	Suna	Sashodhar Pal, Shaktipada Pal, Jogesh Pal
		645/1717	0.191	Rayat	Suna	Asit Kr. Pal, Mrintunjoy Pal, Upendra Pal
		646	0.21	Rayat	Sali	Nityananda Ghosh, Bhupendra Ghosh, Manasa Bala Ghosh, Mani Mohan Ghosh.
		647	0.008	Rayat	Sali	Pareesh Chai, Mohan Chai, Sailendra Chai, Sudarsan Chai
		648	0.181	Rayat	Sali	Gurupada Ghosh, Nirapada Ghosh
		649	0.273	Rayat	Sali	Gurupada Ghosh, Nirapada Ghosh
		650	0.197	Rayat	Suna	Sailendra Nath Ghosh.
		651	0.006	Rayat	Sali	Jotindranath Mandal.
		766	0.006	Rayat	Khamar	Paban Chandra Ghosh, Manasaram Ghosh, Astu Charan Ghosh, Pareesh Chandra Ghosh, Sailendranath Ghosh, Amitabha Ghosh, Suryakanta Ghosh
		767	0.025	Rayat	Bastu	Manasaram Ghosh, Astu Charan Ghosh, Pareesh Chandra Ghosh, Sailendranath Ghosh, Chandi Charan Ghosh, Gorachand Ghosh, Ajit Ghosh, Dinanath Ghosh, Jaydeb Ghosh, Paban Kr. Ghosh, Birendra Ghosh, Bandana Sau, Ratan Chandra Ghosh, Labopada Ghosh, Sufal Chandra Ghosh, Suryakanta Ghosh, Gour Chandra Ghosh, Sital Chandra Ghosh
		769	0.1	Rayat	Bastu	Panchanan Santra, Bishwanath Santra, Bharat Santra, Sarath Santra
		770/1660	0.21	Rayat	Suna	Ganesh Kr. Sarkar, Paban Kr. Sarkar, Gopal Kr. Sarkar, Gonesh Ghosh, Manasa Ghosh.
		781	0.09	Rayat	Doba	Asit Kr. Pal, Mrintunjoy Pal, Jotin Pal, Jogesh Pal, Rabindranath Pal, Saktipada Pal, Sashodhar Pal, Upendra Pal, Manasa Ghosh, Ganesh Ghosh, Pashupati Pal.
		782	0.174	Rayat	Bastu	Gopal Ghosh, Gour Ghosh, Panchanan Ghosh, Pratima Ghosh, Manasa Ghosh, Michhri Charan Ghosh, Santosh Kr. Ghosh, Haradhan Ghosh.
		782/1623	0.08	Rayat	Rasta	Dankuni Anchal
		788	0.075	Rayat	Bastu	Mantu Ghosh, Sukumar Ghosh, Rajbala Ghosh, Parul Ghosh, Narayan Ghosh, Ganga Ghosh, Chaina Ghosh, Angurbala Ghosh, Deben Ghosh, Gorachand Ghosh, Banomali Ghosh, Bhutnath Ghosh, Labopada Ghosh
		796	0.308	Rayat	Viti	Dhananjay Ghosh, Mahimohan Ghosh, Nityananda Ghosh, Bhupendra Ghosh, Ananda Mandal, Sushanta Mandal, Kamalakanata Mondal, Hemanta Ghosh.
		797	0.003	Rayat	Danga	Pasupatai Pal, Bharat Chandra Ghosh, Ajit Kr. Ghosh, Sanath Ghosh, Kartick Chandra Ghosh, Mayarani Mandal
		798	0.039	Rayat	Suna	Nishikanta Pal, Asit Kr. Pal, Mrintunjoy Pal, Jotin Pal, Jogesh Pal, Rabindranath Pal, Saktipada Pal, Sasodhar Pal, Upendra Pal.
		799	0.03	Rayat	Suna	Nishikanta Pal, Asit Kr. Pal, Mrintunjoy Pal, Jotin Pal, Jogesh Pal, Rabindranath Pal, Saktipada Pal, Sasodhar Pal, Upendra Pal.
		800	0.26	Rayat	Suna	Gurupada Ghosh, Nirapada Ghosh.
		803	0.07	Rayat	Suna	Nityananda Ghosh, Bhupendra Ghosh, Manimohan Ghosh.
		805	0.027	Rayat	Suna	Santidebi Singh, Malabika Ghosh, Bijay Ray, Prabhati Ray

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		806	0.008	Rayat	Suna	Bharat Chandra Ghosh, Ajit Kr. Ghosh, Sanath Ghosh, Kartick Chandra Ghosh, Mayarani Mandal.
		809	0.002	Rayat	Suna	Kalpna Pal, Haradhan Sengupta.
		810	0.006	Rayat	Danga	Pankaj Kr. Pal, Debdas Addhya, Dhananjay Ghosh, Pratima Rani Nayek, Saraswati Negel, Angurbala Hauli, Rabindranath Pal, Renuka Pal.
		1006/1624	0.006	Rayat	Path	Dankuni Anchal
		1007	0.1	Rayat	Bansh Bagan	Gorachand Ghosh, Labopada Ghosh, Suryakanta Ghosh
		1008	0.415	Rayat	Suna	Manasaram Ghosh, Astu Charan Ghosh, Paresch Chandra Ghosh, Sailendranath Ghosh, Gorachand Ghosh, Ajit Ghosh, Dinanath Ghosh, Jaydeb Ghosh, Paban Kr. Ghosh, Birendra Ghosh, Bandana Sau, Ratan Chandra Ghosh, Labopada Ghosh, Sufal Chandra Ghosh, Suryakanta Ghosh
		1109	0.201	Rayat	Suna	Ratan chandra Ghosh, Gour chandra Ghosh, Sital chandra Ghosh, Kartick Belei, Rampada Belei, Basudeb Belei, Dinabandhu Belei, Jaharlal Belei, Ramji Das, Ashutosh Belei
		1110	0.08	Rayat	Suna	Susanta Ghosh, Kartik Chandra Ghosh.
		1119/1785	0.006	Rayat	Suna	Ratan Chandra Ghosh
		1119/1786	0.080	Rayat	Suna	Ratan Chandra Ghosh
		1119/1787	0.050	Rayat	Suna	Ajit Kr. Karmakar, Ranjit Kr. Karmakar.
		1115	0.005	Rayat	Sali	Chhabi Ghosh, Namita Ghosh, Nimai Ghosh, Arun Ghosh, Balai Ghosh, Manyabala Ghosh, Minati Bor, Shambhu Ghosh, Shibu Ghosh, Sandhya Ghosh
		1116	0.015	Rayat	Sali	Sital Ghosh.
		1117	0.028	Rayat	Sali	Tarapada Ghosh, Sabu Ghoh, (Late) Sufal Ghosh
		1118	0.037	Rayat	Sali	Tinkori Ghosh, Badal Chandra Ghosh
		1119	0.066	Rayat	Suna	Ajit Kr. Karmakar, Ranjit Kr. Karmakar.
		1120	0.026	Rayat	Suna	Ratan Chandra Ghosh, Gour Chandra Ghosh, Sital Chandra Ghosh, Kartick Belei, Rampada Belei, Basudeb Belei, Dinabandhu Belei, Jaharlal Belei, Ashutosh Belei
		1121	0.064	Rayat	Suna	Astu Charan Ghosh.
		1122	0.101	Rayat	Sali	Nakul Chandra Chai.
		1122/1789	0.005	Rayat	Sali	Paresch Chandra Ghosh, Sailendranath Ghosh
		1122/1790	0.111	Rayat	Sali	Haradhan Ghosh
		1122/1791	0.006	Rayat	Doba	Jaladhar Ghosh, Sibul Ghosh(Balti), Paresch Chandra Ghosh, Sailendranath Ghosh, Nakul Chandra Chai, Haradhan Ghosh.
		1122/1792	0.264	Rayat	Sali	Jaladhar Ghosh (Balti), Sibul Ghosh(Balti)
		1164	0.069	Rayat	Sali	Keka Das, Swapna Pan, Srikantha Sahu, Anil Sahu, Nilkanta Mallick, Prabir Banerjee, Tojammel Haque Laskar, Nurmahommad Laskar, Saifulla Laskar, Minati Mallick, Amal Kr. Sardar, Saraswati Majumdar.
		1165	0.081	Rayat	Sali	Pratima Ghosh, Pratima Sau, Arati Nath, Robindranath Pal, Lilabati Rauth, Sankar Sau, Upendra Pal
		1166	0.044	Rayat	Sali	Abdul kalam Laskar, Ganesh Chandra Paramanik, Ali Azgar Laskar, Yakub Ali Laskar. Abdul Karim Laskar, Hosen Ali Laskar, Hasan Ali Laskar
		1178	0.006	Rayat	Doba	Abdul kalam Laskar, Nazmal Sahadat, Abdul Hi Laskar, Mahera Khatun, Saboruddin Laskar, Kutubuddin Laskar, Alauddin Laskar, Ganesh Chandra Paramanik, Jamsed Ali Laskar, Dashurathi Chai, Sk. Siddik Ali Laskar, Sk. Nur Mahammad (Sk.Hiru) Abdul Karim Laskar. Ali Azgar Laskar, Mujibor Rahaman Laskar, Resida Khatun Bibi, Yakub Ali Laskar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1179	0.162	Rayat	Suna	Abdul kalem Laskar, Nazmal Sahadat, Abdul Hi Laskar, Mahera Khatun, Saboruddin Laskar, Kutubuddin Laskar, Alauddin Laskar, Ganesh Chandra Paramanik, Jamsed Ali Laskar, Dashedurathi Chal, Siddik Ali Laskar, Sk. Nur Mohammad (Sk.Hiku) Abdul Karim Laskar.
		1180	0.146	Rayat	Suna	Shyamsunder Koley, Mayarani Koley, Parash Chandra Ghosh, Tarun Kanti Ghosh, Panchannan Dey, Balaram Mukhopadhyay, Laxman Chand, Saraswati Dey, Hiralal Mukhopadhyay
		1181	0.063	Rayat	Basu	Sanath Kr. Mukhopadhyay, Maniklal Mukhopadhyay, Bishwanath Mukhopadhyay, Hiralal Mukhopadhyay, Balaram Mukhopadhyay
		1182	0.017	Rayat	Suna	Banani Banerjee, Anil Ruidas, Pradip Ghosh, Akbar Ali Laskar.
		1184	0.005	Rayat	Sali	Anil Ruidas, Gautam Das, Astu Patra, Akkash Ali Laskar, Maantaj Ali Laskar, Montaj Ali Mailick, Moslem Ali Laskar, Astami Das, Bishnupada Singh, Alpna Das, Shambhucharan Das, Saogat Ali Laskar
		1185	0.05	Rayat	Doba	Akbar Ali Laskar, Balaram Mukhopadhyay, Akkash Ali Laskar, Bishwanath Mukhopadhyay, Maantaj Ali Laskar, Maniklal Mukhopadhyay, Moslem Ali Laskar, Saogat Ali Laskar, Sanath Kr. Mukhopadhyay, Hiralal Mukhopadhyay,
		1186	0.016	Rayat	Sali	Anil Kr. Dey, Ruma Banerjee, Eyakub Ali Laskar.
		1187	0.101	Rayat	Sali	Laxman Thakur, Charan Thakur, Kalpana Patra, Asit Kr. Pal.
3.	Beledanga -91	47	0.003	Rayat	Sali	Mangala Das, Kamala Bala Ghosh
		48	0.167	Rayat	Sali	Krishnadhan Mandal, Arup Mandal, Himanshu Mandal, Kishori Mandal, Ratanbala Mandal
		50	0.06	Rayat	Sali	Krishnadhan Ghosh, Krishna Chandra Chal, Gobinda Ghosh, Madan Ghosh
		51	0.09	Rayat	Sali	Surendranath Ghosh
		52	0.09	Rayat	Sali	Promila Ghosh, Sudhir Ghosh
		53	0.22	Rayat	Sali	Adhir Ghosh, Ramesh Chandra Ghosh, Arabinda Ghosh
		76	0.024	Rayat	Sali	Laxman Chal, Krishna Chandra Chal, Tulsi Charan Chal
		184	0.013	Rayat	Basu	Jitendranath Ghosh, Nimal Chandra Ghosh, (Late) Balaj Charan Ghosh, Maniram Chandra Patra, Laxman Chandra Patra, Sannyasi Charan Ghosh, Kanailal Ghosh, Bishwanath Ghosh Mandal, Ganesh Ghosh Mandal, Bhabani Ghosh Mandal, Shambhunath Ghosh, Arati Ghosh, Raju Ghosh, Rajesh Ghosh
		186	0.003	Rayat	Basu	(Late) Balaj Charan Ghosh, Kalipada Mandal
		192	0.02	Rayat	Basu	Narayan Mandal, Rabin Mandal, Brindeban Mandal, Jhontu Ram Mandal, Gopal Chandra Mandal, Jitendranath Ghosh, Promila Ghosh, (Late) Balaj Charan Ghosh, Mangala Das, Jatindranath Ghosh, Kamala Bala Ghosh, Sudhir Ghosh, Kanai Lal Ghosh, Basudeb Mandal, Bishwanath Ghosh Mandal, Ganesh Ghosh Mandal, Bhabani Ghosh Mandal
		196	0.28	Rayat	Basu	Krisnadhan Mandal, Arup Mandal, Bishwanath Mandal, Manasaram Mandal, Sarojini Mandal, Sudhir Ghosh, Himanshu Mandal, Kishori Mandal
		197	0.01	Rayat	Path	Barijhati Anchal
		198	0.07	Rayat	Path	Barijhati Anchal
		199	0.02	Rayat	Viti	Krishnadhan Mandal, Panchanan Chal, Arup Mandal, Bishwanath Mandal, Manasaram Mandal, Himanshu Mandal, Kalipada Mandal, Kishori Mandal.
		200	0.17	Rayat	Basu	Chaina Bala Ghosh, Balaj Chandra Bagui, Ananda Bagui

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		201	0.09	Rayat	Bastu	Krishna Chandra Ghosh, Gobordhan Ghosh.
		202	0.05	Rayat	Bastu	Mahadeb Ghosh, Kanai Ghosh
		203	0.071	Rayat	Viti	Dashurathi Ghosh, Nimal Ghosh
		204	0.09	Rayat	Bastu	Nimal Ghosh, Sagar Ghosh
		205	0.04	Rayat	Viti	Dashurathi Ghosh, Nimal Ghosh
		206	0.05	Rayat	Bastu	Dashurathi Ghosh, Nimal Ghosh
		207	0.04	Rayat	Bastu	Durjodhan Ghosh
		207/1611	0.05	Rayat	Viti	Nimal Ghosh.
		208	0.087	Rayat	Bastu	Girish Ghosh, Balai Ghosh
		209	0.003	Rayat	Path	Barihati Anchal
		210	0.002	Rayat	Bastu	Sital Chandra Ghosh, Kadan Chandra Ghosh
		219	0.059	Rayat	Pukur	Anli Chandra Ghosh, Krishnadhan Ghosh, Ganesh Ghosh, Krishna Chandra Ghosh, Gobinda Ghosh, Panchanan Ghosh, Anita Ghosh, Mahesh Chandra Ghosh, Jibon Krishna Ghosh, Tarak Ghosh, Tustu Charan Ghosh, Dashurathi Ghosh, Durjodhan Ghosh, Nitai Charan Ghosh, Nimal Ghosh, Ajit Ghosh, Badrinath Ghosh, Balai Ghosh, Basudeb Ghosh, Bireswar Ghosh, Ananda Kumar Bagui, Bhadreswar Ghosh, Mahadeb Ghosh, Mahendra Ghosh, Ranjit Ghosh, Rabindranath Ghosh, Sital Chandra Ghosh, Sailendra Nath Ghosh, Umarani Belei, Urmila Baduri, Sagor Ghosh, Sudarshan Ghosh, Sudhir Ghosh, Haradhan Ghosh, Kadan Chandra Ghosh, Kanai Ghosh, Gobardhan Ghosh
		220	0.03	Rayat	Bansh Bagan	Siddheswar Koley, Surendra Nath Ghosh
		221	0.08	Rayat	Bastu	Siddheswar Koley
		222	0.1	Rayat	Bastu	Surendra Nath Ghosh
		223	0.13	Rayat	Sali	Guiram Ghosh, Sufal Ghosh
		224	0.08	Rayat	Viti	Krishna Dhan Mandal, Guiram Ghosh, Dwark Ghosh, Arup Mandal, Sufal Ghosh, Himanshu Mandal, Kishori Mandal
		225	0.398	Rayat	Pukur	Krishnadhan Ghosh, Ganesh Ghosh, Krishnadhan Mandal, Guiram Ghosh, Gobinda Ghosh, Tulsibala Ghosh, Panchanan Chai, Paresb Pal, Arup Mandal, Panchubala Dasi Mandal, Probod Acharya, Pramila Ghosh, Banshi Ghosh, Balai Chandra Bagui, Bishwanath Ghosh, Bishwanath Mandal, Bhborani Ghosh, Bholanath Ghosh, Bharat Ghosh, Mangala Dasi, Manasaram Mandal, Mahadeb Ghosh, Jatindra Nath Ghosh, Rajani Ghosh, Ratan Bala Mandal, Rameswar Dapsi, Sudhir Ghosh, Sufal Ghosh, Surendra Nath Ghosh, Swapan Ghosh, Kamala Ghosh, Himanshu Mandal, Kanai Lal Ghosh, Kishori Mandal
		226	0.3	Rayat	Danga	Siddheswar Ghosh, Surendra Nath Ghosh, Bidduth Ghosh, Pradip Ghosh
		227	0.09	Rayat	Bansh Bagan	Jitendra Nath Ghosh, Pramila Ghosh, (Late) Balai Charan Ghosh, Mangala Dasi, Kamala Bala Ghosh, Sudhir Ghosh, Ganesh Ghosh, Kanai Lal Ghosh, Bishwanath Ghosh Mandal, Ganesh Ghosh Mandal, Bhabani Ghosh Mandal, Swapan Ghosh, Bhart Ghosh, Bhabarani Ghosh, Banshi Ghosh
		228	0.13	Rayat	Daga	Guiram Ghosh, Sufal Ghosh
		229	0.07	Rayat	Doba	Krishadhan Mandal, Guiram Ghosh, Jitendra Nath Ghosh, Arup Mandal, Pramila Ghosh, (Late) Balai Charan Ghosh, Mangala Dasi, Ratan Bala Mandal, Kamala Bala Ghosh, Sudhir Ghosh, Sufal Ghosh, Surendra Nath Ghosh, Himanshu Mandal, Kanai Lal Ghosh, Bishwanath Ghosh Mandal, Ganesh Ghosh Mandal, Bhabani Ghosh Mandal, Kishori Mandal.
		230	0.03	Rayat	Sali	Ananda Kumar Bagui
		231	0.1	Rayat	Sali	Dashurathi Ghosh, Nimal Ghosh
		232	0.14	Rayat	Sali	Durjodhan Ghosh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		233	0.17	Rayat	Viti	Dashurathi Ghosh, Nimal Ghosh, Durjodhan Ghosh, Ananda Kumar Bagui, Sallendra Nath Ghosh
		234	0.016	Rayat	Viti	Nimal Ghosh, Sagar Ghosh
		235	0.012	Rayat	Viti	Krishna Chandra Ghosh, Krishna Dhan Ghosh, Gobordhan Ghosh, Anita Ghosh, Panchanan Ghosh, Mahadeb Ghosh, Kanai Ghosh
		274	0.06	Rayat	Doba	Dashurathi Ghosh, Nimal Ghosh
		275	0.25	Rayat	Danga	Pusporani Bagui, Kaishi Nath Ray
		276	0.11	Rayat	Bestu	Arabindu Ghosh, Jugal Ghosh, Adhir Ghosh, Ramesh Chandra Ghosh, Arabinda Ghosh
		277	0.08	Rayat	Bestu	Bijay Negel, Samir Negel, Tarapada Negel, Rabin Negel, Tapan Negel, Binapani Negel, Minarani Negel, Mayarani Negel
		279	0.06	Rayat	Doba	Kartick Chandra Bagui, Kanai Ghosh, Anil Ghosh, Krishnadhan Ghosh, Gobinda Ghosh, Panchanan Ghosh, Ashok Porel, Mahadeb Ghosh, Jamini Ranjan Ghosh, Jugal Ghosh, Sallendra Nath Ghosh, Karna Kumar Koley
		280	0.02	Rayat	Danga	Krishna Chandra Ghosh, Gobordhan Ghosh, Bijay Negel, Bishnu Negel, Samir Negel, Tarapada Negel, Rabin Negel, Tapan Negel, Binapani Negel, Minarani Negel, Mayarani Negel
		281	0.028	Rayat	Path	Borjhati Anchal
		282	0.19	Rayat	Suna	Madan Ghosh
		283	0.1	Rayat	Suna	Balal Charan Bagui
		284	0.1	Rayat	Suna	Jaydeb Ghosh, Sanatan Ghosh, Sukumar Ghosh, Sunil Ghosh, Sushil Ghosh,
		285	0.052	Rayat	Suna	Dharani Pati Fusti, Nikhil Fusti, Panpati Fusti, Raghupati Fusti, Sitapati Fusti
		286	0.1	Rayat	Suna	Guiram Ghosh, Sufal Ghosh
		290	0.003	Rayat	Suna	Krishna Chandra Ghosh, Gobordhan Ghosh
		291	0.1	Rayat	Suna	Kanai Ghosh
		292	0.025	Rayat	Suna	Ananda Kumar Bagui
		293	0.016	Rayat	Suna	Dashurathi Ghosh, Nimal Ghosh
		295	0.03	Rayat	Suna	Kanai Ghosh
		297	0.06	Rayat	Viti	Padma Ghosh
		298	0.05	Rayat	Doba	Bijay Ghosh, Gobinda Ghosh, Anil Ghosh
		299	0.51	Rayat	Suna	Jitendra Nath Ghosh, Arun Kumar Ghosh, (Late) Balal Charan Ghosh, Kanailal Ghosh
		300	0.17	Rayat	Suna	Gour Hari Polen, Arun Kumar Ghosh, (Late) Balal Charan Ghosh, Kanailal Ghosh
		301	0.09	Rayat	Suna	Jitendra Nath Ghosh, Nimal Chandra Ghosh, (Late) Balal Charan Ghosh, Maniram Chandra Patra, Laxman Chandra Patra, Sallendra Nath Ghosh, Sannyasi Charan Ghosh, Kanai Lal Ghosh, Bishwanath Ghosh Mandal, Ganesh Ghosh Mandal, Bhabani Ghosh Mandal, Shambhu Nath Ghosh, Arati Ghosh, Raju Ghosh, Rajesh Ghosh
		302	0.006	Rayat	Viti	Krishnadhan Mondal, Girish Ghosh, Guiram Ghosh, Anukul Pal, Chandu Chakraborty, Arup Mandal, Sholanath Ghosh, Mangala Das, Ajit Chakraborty, Sujit Chakraborty, Sudhir Ghosh, Sufal Ghosh, Subal Chandra Ghosh, Haridayal Ghosh, Himanshu Ghosh, Arjun Chandra Ghosh, Jatindra Nath Ghosh, Sotish Chandra Ghosh, Kanai Lal Ghosh, Balal Ghosh, Kishori Mandal
		304	0.2	Rayat	Suna	Krishnadhan Ghosh, Gobinda Ghosh, Mahadeb Ghosh, Jamini Ranjan Ghosh, Karna Kumar Polen, Kartick Chandra Bagui, Kanai Ghosh
		305	0.17	Rayat	Suna	Balal Charan Bagui
		306	0.04	Rayat	Viti	Balal Charan Bagui, Ananda Kumar Bagui
		307	0.09	Rayat	Bestu	Balal Charan Bagui, Ananda Kumar Bagui
		308	0.04	Rayat	Viti	Balal Charan Bagui, Ananda Kumar Bagui
		309	0.003	Rayat	Bestu	Krishna Chandra Ghosh, Gobordhan Ghosh
		310	0.02	Rayat	Viti	Krishna Chandra Ghosh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		311	0.003	Rayat	Basu	Gopal Ghosh, Nayan Ghosh.
		312	0.004	Rayat	Path	Barijhati Anchal
		342	0.084	Rayat	Pukur Par	Anjali Bhoumik, Pralay Kumar Nag, Raj Kumar Shaw, Sachindra Nath Ghosh, Sunil Kumar Ghosh, Subodh Chandra Ghosh, Kartick Shaw, Sulekha Dholey, Nihar Ranjon Dholey, Anamika Pal, Goutam Kumar Pal.
		344	0.17	Rayat	Viti	Atul Pandit, Rina Saha, Gokul Pandit, Jaydeb Pandit, Deben Pandit, Dhananjay Pandit, Purnachandra Pandit, Krishnachandra Pandit, Abir Pandit
		345	0.002	Rayat	Bansh Bagan	Madan Ghosh, Shyamsunder Ghosh
		346	0.024	Rayat	Bansh Bagan	Rajendranath Chakraborty
		347	0.06	Rayat	Danga	Rajendranath Chakraborty
		348	0.02	Rayat	Danga	Ganesh Chakraborty, Gopal Chakraborty, Jaharlal Chakraborty, Madhusudan Chakraborty, Rabin Chakraborty, Laxmikanta Chakraborty, Sanatan Chakraborty, Sudhir Chakraborty, Haradhan Chakraborty.
		349	0.03	Rayat	Danga	Ganesh Chakraborty, Gopal Chakraborty, Jaharlal Chakraborty, Madhusudan Chakraborty, Rabin Chakraborty, Laxmikanta Chakraborty, Sanatan Chakraborty, Sudhir Chakraborty, Haradhan Chakraborty.
		350	0.03	Rayat	Danga	Rajendranath Chakraborty
		351	0.098	Rayat	Danga	Ajit Chakraborty & Others
		352	0.03	Rayat	Danga	Ganesh Chakraborty, Gopal Chakraborty, Jaharlal Chakraborty, Madhusudan Chakraborty, Rabin Chakraborty, Laxmikanta Chakraborty, Sanatan Chakraborty, Sudhir Chakraborty, Haradhan Chakraborty.
		353	0.095	Rayat	Doba	Ganesh Chakraborty, Gopal Chakraborty, Chandu Chakraborty, Jaharlal Chakraborty, Madhusudan Chakraborty, Ajit Chakraborty, Rabin Chakraborty, Rajendranath Chakraborty, Laxmikanta Chakraborty, Sanatan Chakraborty, Sujit Chakraborty, Sudhir Chakraborty, Haradhan Chakraborty
		354	0.03	Rayat	Viti	Jaladhar Ghosh, Kanailal Ghosh, Jitendranath Ghosh
		355	0.009	Rayat	Viti	Mahadeb Ghosh, Jamini Ranjan Ghosh, Karno kumar Polen, Kartick Chandra Bagui, Kanai Ghosh
		357	0.384	Rayat	Pukur	Sachindranath Ghosh, Sunil Kumar Ghosh, Subhod Chandra Ghosh, Sulekha Dholey, Nihar Ranjan Dholey, Jagannath Ghosh.
		358	0.016	Rayat	Mandir	Anil Chakraborty, Ganesh Chakraborty, Gopal Chakraborty, Gourmohan Chakraborty, Jaharlal Chakraborty, Nitai Pada Chakraborty, Prafulya Chakraborty, Debottor Shree Shree Panchanan Thakur
		359	0.03	Rayat	Danga	Sachindra Nath Ghosh, Sunil Kumar Ghosh, Subodh Chandra Ghosh.
		360	0.255	Rayat	PukurPar	Sachindra Nath Ghosh, Sunil Kumar Ghosh, Subodh Chandra Ghosh, Sanjay Pal, Momy Dholey, Manoj Kumar Das, Gouri Das, Jagannath Ghosh
		379	0.089	Rayat	Path	Barijhati Anchal
		442	0.02	Rayat	Path	Barijhati Anchal
		443	0.004	Rayat	Danga	West Bengal Government
		444	0.018	Rayat	Suna	Ashis Kumar Dey Sarkar, Kshudiram Chakraborty
		912	0.117	Rayat	Rasta	President, Zilla School Board, Zilla Parishad, Hooghly
		974	0.036	Rayat	Suna	Gobinda Chandra Adak, Tarak Chandra Adak, Panchkori Adak
		975	0.04	Rayat	Suna	Manasaram Ghosh, Panchanan Ghosh, Parash Ghosh, Chandl Ghosh
		976	0.05	Rayat	Suna	Chunilal Chai, Pullin Chai, Modan Chai, Manimohan Chai, Kartick Belei
		977	0.05	Rayat	Sali	Gadadhar Chai, Gobordhan Chai, Gopinath Chai, Sitanath Chai, Laxman Chai, Ramesh Chai.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		978	0.01	Rayat	Doba	Chandu Chakraborty, Ajit Chakraborty, Rajendranath Chakraborty, Seji Chakraborty
		979	0.031	Rayat	Suna	Arati Ghosh
		981	0.002	Rayat	Suna	Anil Ghosh.
		982	0.13	Rayat	Sail	Gobinda Chandra Adak, Tarak Chandra Adak, Panchkori Adak
		983	0.08	Rayat	Sail	Kishori Ghosh
		984	0.03	Rayat	Sail	Gayaram Ghosh, Sankar Chandra Ghosh, Rajanikanta Ghosh
		985	0.03	Rayat	Sail	Anil Chakraborty, Sudarshan Chandra Chakraborty, Sunil Chakraborty.
		986	0.024	Rayat	Sail	Sailendranath Ghosh
		1004	0.06	Rayat	Sail	Jitendranath Ghosh, (Late) Balai Charan Ghosh, Rapan Barua, Gayatri Debi, Nirmala Debi.
		1005	0.048	Rayat	Sail	Laxman Chandra Patra
		1006	0.097	Rayat	Sail	Manoka Balu Polen, Madan Ghosh
		1007	0.07	Rayat	Sail	Nimai Chandra Ghosh, Sannyasi Charan Ghosh, Shambhunath Ghosh, Arati Ghosh, Raju Ghosh, Rajesh Ghosh
		1011	0.146	Rayat	Sail	Gourmohan Chakraborty, Nitalpada Chakraborty, Paufulya Chakraborty.
		1012	0.021	Rayat	Sail	Rajendranath Chakraborty
		1013	0.03	Rayat	Sail	Sudarshan Chakraborty
		1052	0.009	Rayat	Sail	Kartick Ghosh.
		1053	0.109	Rayat	Sail	Nitai Charan Ghosh, Kahetra Mohan Ghosh
		1056	0.064	Rayat	Sail	Amit Ghosh
		1057	0.071	Rayat	Sail	Shambhu Nath Ghosh
		1058	0.196	Rayat	Sail	Pachanan Balai
		1059	0.004	Rayat	Sail	Chalna Ghosh, Dipu Ghosh, Padma Ghosh, Parulbala Ghosh, Basanti Ghosh, Jamuna Ghosh, Sujata Ghosh, Kanan Ghosh
		1070	0.049	Rayat	Sail	Annapurna Kundu, Madan Ghosh, Sibendu Sengupta, Shyamsunder Ghosh, Haradhan Ghosh.
		1072	0.277	Rayat	Sail	Chandibala Pramanik, Jagannath Pramanik, Dulal Chandra Pramanik, Angur Balu Pramanik, Molina Pramanik.
		1073	0.021	Rayat	Sail	Rajendranath Chakraborty
		1075	0.003	Rayat	Sail	Ananda Kumar Bagul
		1076	0.06	Rayat	Sail	Chalna Ghosh, Dipu Ghosh, Nimai Ghosh, Padma Ghosh, Parulbala Ghosh, Basanti Ghosh, Jamuna Ghosh, Sujata Ghosh, Kanan Ghosh
		1077	0.03	Rayat	Sail	Haradhan Ghosh
		1078	0.04	Rayat	Sail	Dwarik Ghosh
		1079	0.03	Rayat	Sail	Kartick Ghosh.
		1080	0.13	Rayat	Sail	Chalna Ghosh, Dipu Ghosh, Bankubhieri Ghosh, Padma Ghosh, Parulbala Ghosh, Basanti Ghosh, Jamuna Ghosh, Sujata Ghosh, Kanan Ghosh
		1081	0.018	Rayat	Sail	Rajendranath Chakraborty
		1082	0.084	Rayat	Sail	Jiban Krishna Ghosh, Chandicharan Ghosh
		1083	0.027	Rayat	Sail	Madan Ghosh, Shyamsunder Ghosh
		1084	0.012	Rayat	Sail	Jitendranath Ghosh, Pramila Ghosh, Pramilabala Das Ghosh, (Late) Balai Charan Ghosh, Mangolmoyee Das, Jatindranath Ghosh, Saralabala Mandal, Kamalabala Ghosh, Sudhir Ghosh, Subal Chandra Ghosh, Kanailal Ghosh, Bishwanath Ghosh Mandal, Ganesh Ghosh Mandal, Bhabani Ghosh Mandal.
		50/1609	0.052	Rayat	Sail	Tulsicharan Chai
		226/1601	0.133	Rayat	Doba	Siddheswar Koley, Surendra Nath Ghosh.
4.	Nalty-84	3689	0.018	Rayat	Suna	Bishwanath Ghosh, Shanti Ghosh, Kalipada Ghosh, Gopal Chandra Ghosh, Joydeb Ghosh
		3690	0.019	Rayat	Suna	Tarapada Pal
		3691	0.021	Rayat	Suna	Tarapada Pal
		3692	0.064	Rayat	Suna	Haradhan Pal
		3693	0.08	Rayat	Suna	Sachindra Nath Pal, Harani Balu Pal
		3694	0.03	Rayat	Suna	Panchkori Ghosh
		3695	0.004	Rayat	Suna	Prabhlad Ghosh, Bijay Krishna Ghosh, Bholanath Ghosh, Usharani Ghosh, Shovarani Ghosh, Subhadra Ghosh, Durgarani Ghosh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3707	0.003	Rayat	Suna	Manasa Ram Ghosh, Santosh Ghosh
		3708	0.013	Rayat	Suna	Anna Bala Ghosh, Malati Pal, Panchanan Ghosh
		3709	0.09	Rayat	Doba	Sudarshan Ghosh, Gopal Chandra Kongar, Santosh Pan.
		3709/4540	0.059	Rayat	Doba	West Bengal
		3710	0.06	Rayat	Suna	Shyam Sundar Das
		3711	0.04	Rayat	Suna	Bishnupada Ghosh, Santosh Kumar Ghosh
		3712	0.08	Rayat	Suna	Manasa Ram Ghosh, Santosh Ghosh
		3713	0.439	Rayat	Suna	Champa Ghosh, Jaladhar Mandal, Durgarani Pal, Pashupati Pal
		3714	0.08	Rayat	Suna	Himanshu Pal, Kalipada Pal, Jayanta Kumar Pal, Anil Pal, Asit Kumar Pal
		3715	0.074	Rayat	Path	Union Board, Naiti Grampanchayat
		3716	0.02	Rayat	Suna	Santosh Ghosh, Sailya Charan Ghosh, Jaladhar Ghosh, Nepal Chandra Ghosh, Paritosh Chandra Ghosh, Pashupati Ghosh
		3716/4450	0.091	Rayat	Suna	Santosh Ghosh, Sailya Charan Ghosh, Jaladhar Ghosh, Nepal Chandra Ghosh, Paritosh Chandra Ghosh, Pashupati Ghosh
		3717	0.28	Rayat	Suna	Kalipada Pal
		3718	0.182	Rayat	Suna	Kalipada Pal
		3719	0.002	Rayat	Suna	Prahlad Ghosh, Bijay Krishna Ghosh, Bholanath Ghosh, Usharani Ghosh, Shovarani Ghosh, Subhadra Ghosh, Durgarani Ghosh
		3723	0.194	Rayat	Suna	Kalipada Pal
		3762	0.082	Rayat	Suna	Krishna Chandra Ghosh
		3763	0.069	Rayat	Suna	Prasanta Pal, Biseshwar Pal, Mahamaya Pal, Sankar Pal, Sasti Ram Pal, Susanta Kumar Pal, Kali Charan Pal, Paresh Chandra Pal, Ramesh Chandra Pal, Pranab Kumar Pal, Pradip Kumar Pal, Kausalya Rani Pal, Nirupama Pal
		3764	0.09	Rayat	Bagan	Laxman Chandra Ghosh, Charu Chandra Ghosh
		3765	0.08	Rayat	Suna	Shyamapada Ghosh
		3767	0.15	Rayat	Suna	Kali Dasi
		3768	0.15	Rayat	Suna	Ashalata Ghosh
		3769	0.14	Rayat	Suna	Gosto Bihari Pal, Nitai Pal
		3770	0.229	Rayat	Suna	Kalipada Pal
		3771	0.26	Rayat	Suna	Balai Chandra Pal, Becha Bala Pal, Madan Mohan Ghosh, Sachindra Nath Pal, Harani Bala Pal, Kalipada Pal, Nemai Chandra Pal
		3772	0.09	Rayat	Suna	Joggeswar Ghosh, Santosh Ghosh, Menoka Ghosh, Bishwanath Ghosh, Madan Ghosh, Umarani Ghosh, Sailacharan Ghosh, Nepal Chandra Ghosh, Paritosh Chandra Ghosh
		3773	0.08	Rayat	Suna	Jatin Pal, Satish Pal
		3774	0.044	Rayat	Suna	Jatin Pal, Satish Pal
		3775	0.002	Rayat	Suna	Jatin Pal, Satish Pal
		3776	0.028	Rayat	Suna	Bhadai Ghosh, Hadu Charan Ghosh
		3777	0.021	Rayat	Suna	Satkori Ghosh
		3778	0.13	Rayat	Suna	Balai Chandra Pal, Becha Bala Pal, Shib Chandra Pal, Kalipada Pal, Nimai Chandra Pal, Jiban Krishna Pal, Gour Chandra Pal
		3779	0.073	Rayat	Suna	Balai Chandra Pal, Becha Bala Pal, Sachindra Nath Pal, Shib Chandra Pal, Harani Bala Pal, Kalipada Pal, Nimai Chandra Pal, Jiban Krishna Pal
		3780	0.006	Rayat	Sali	Jamuna Bala Pal, Laxman Pal, Satya Pal, Tara Bala Pal
		3784	0.035	Rayat	Sali	Bishwanath Ghosh, Jaladhar Mandal, Nandarani Mandal
		3785	0.05	Rayat	Sali	Laxman Chandra Ghosh, Dasharothi Ghosh
		3786	0.05	Rayat	Sali	Sudarshan Ghosh, Dhananjay Ghosh, Pannalal Ghosh
		3787	0.08	Rayat	Sali	Bishwanath Ghosh, Kalipada Ghosh
		3788	0.15	Rayat	Sali	Arun Kumar Pal, Paresh Chandra Pal
		3789	0.06	Rayat	Sali	Ranjan Kumar Pal, Ramesh Chandra Pal, Pralay Pal, Palash Pal, Pradip Kumar Pal, Tapan Kumar Pal, Arun Kumar Pal, Paresh Chandra Pal, Pradip Kumar Pal, Pranab Kumar Pal
		3790	0.05	Rayat	Sali	Ranjan Kumar Pal, Pralay Pal, Palash Pal, Pradip Kumar Pal, Tapan Kumar Pal, Arun Kumar Pal, Paresh Chandra Pal, Pradip Kumar Pal, Pranab Kumar Pal, Ramesh Chandra Pal
		3791	0.231	Rayat	Sali	Kalipada Pal
		3794	0.002	Rayat	Sali	Shyamapada Ghosh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3795	0.08	Rayat	Sali	Santosh Ghosh, Salla Charan Ghosh, Nepal Chandra Ghosh, Paritosh Chandra Ghosh
		3796	0.011	Rayat	Sali	Kalipada Pal
		3797	0.05	Rayat	Sali	Bakreswar Pal, Santosh Pal, Hrisikesh Pal, Dilip Kumar Pal, Sanatan Pal, Prabir Kumar Pal, Gayetri Pal, Anjali Pal, Madhuri Pal
		3798	0.05	Rayat	Sali	Kalipada Pal
		3799	0.05	Rayat	Sali	Balai Chandra Pal, Becha Balu Pal, Oma Pal, Sachindra Nath Pal, Sandhya Pal, Harani Balu Pal, Kali Pada Pal, Nimai Chandra Pal, Jiban Krishna Pal, Pampa Rani Ghosh
		3800	0.06	Rayat	Sali	Bhabani Pal, Jatish Chandra Pal, Renubala Pal, Shyama Pada Pal, Satish Chandra Pal, Subal Pal, Kanan Balu Santra, Gouri Balu Ghosh, Jagadish Chandra Pal, Jaydeb Pal, Jyotsna Ghosh, Nitish Chandra Pal, Nimai Chandra Pal
		3801	0.03	Rayat	Sali	Jamuna Balu Pal, Laxman Pal, Satya Pal, Tara Balu Pal
		3802	0.046	Rayat	Sali	Champa Ghosh
		3803	0.062	Rayat	Sali	Ashutosh Pal, Manasa Ram Pal, Kartik Pal, Ganesh Chandra Pal, Gour Mohan Pal
		3804	0.04	Rayat	Sali	Bhadreswar Ghosh, Manasa Ram Ghosh, Manik Chandra Ghosh, Muktaran Ghosh
		3805	0.07	Rayat	Sali	Mritunjay Ghosh, Radharani Ghosh, Sunilabala Pal, Krishna Mohan Ghosh, Anila Balu Pal, Tara Ghosh, Dhyanjay Ghosh, Pannalal Ghosh
		3806	0.193	Rayat	Sali	Bishwanath Mandal, Jaleshar Mandal, Durgarani Pal
		3807	0.018	Rayat	Sali	Kehiroda Prasad Pal, Ananda Prasad Pal
		3735/4473	0.455	Rayat	Nadir Jomi	Irrigation Dept.
5.	Chanditala - 85	59	0.063	Rayat	Doba	Krishnaadnan Mukhopadhyay, Gitanani Bandopadhyay, Barodamoyee Debi, Basudeb Mukhopadhyay, Bimal Kumar Mukhopadhyay, Bishwanath Mukhopadhyay, Satya Charan Mukhopadhyay, Sudhir Chandra Mukhopadhyay
		74	0.039	Rayat	Suna	Ajit Kumar Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Sujit Kumar Ghosh.
		75	0.048	Rayat	Suna	Pulin Bihari Ghosh.
		76	0.038	Rayat	Suna	Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		77	0.03	Rayat	Suna	Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		78	0.064	Rayat	Suna	Dilip Ghosh, Babla Ghosh, Sankar Ghosh, Shibu Ghosh, Satish Ghosh, Umabala Ghosh.
		79	0.182	Rayat	Suna	Nalin Bihari Bandopadhyay
		80	0.04	Rayat	Doba	Nalin Bihari Bandopadhyay
		81	0.16	Rayat	Suna	Aychabala Ghosh.
		82	0.044	Rayat	Suna	Aychabala Ghosh.
		85	0.124	Rayat	Suna	Karunamoyee Ghosh, Ajit Kumar Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Swarnolata Ghosh, Sujit Kumar Ghosh.
		86	0.201	Rayat	Suna	Kashinath Ghosh, Borabala Ghosh, Satish Ghosh
		87	0.008	Rayat	Suna	Pulin Bihari Ghosh.
		88	0.14	Rayat	Doba	Karunamoyee Ghosh, Ajit Kumar Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Swarnolata Ghosh, Sujit Kumar Ghosh, Kashinath Ghosh, Satish Ghosh, Borabala Ghosh, Pulin Bihari Ghosh, Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Madan Mohan Kumar, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh
		89	0.049	Rayat	Bagan	Kamalarani Das, Jaydeb Kumar, Nabakumar Kumar, Nirmal Chandra Kumar, Amal Chandra Kumar, Asit Baran Kumar, Binapani Kumar, Madan Mohan Kumar, Santiram Kumar, Sunil Kumar.
		92	0.06	Rayat	Sali	Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		96	0.029	Rayat	Bastu	Karunamoyee Ghosh, Ajit Kumar Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Swarnolata Ghosh, Sujit Kumar Ghosh.
		97	0.02	Rayat	Viti	Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh, Malabala Ghosh
		98	0.06	Rayat	Suna	Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		99	0.08	Rayat	Bastu	Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		100	0.023	Rayat	Bastu	Karunamoyee Ghosh, Ajit Kumar Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Swarnolata Ghosh, Sujit Kumar Ghosh, Kashinath Ghosh, Satish Ghosh, Borabala Ghosh, Pulin Bihari Ghosh, Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh
		101	0.035	Rayat	Viti	Kashinath Ghosh, Satish Ghosh, Borabala Ghosh,
		102	0.002	Rayat	Bagan	Pulin Bihari Ghosh.
		103	0.05	Rayat	Bastu	Pulin Bihari Ghosh.
		104	0.043	Rayat	Bastu	Kalipada Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Swarnolata Ghosh, Sujit Kumar Ghosh, Malabala Ghosh, Kashinath Ghosh, Buro Ghosh, Bijayabala Dasi, Satish Ghosh, Pulin Bihari Ghosh, Nibaran Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		105	0.015	Rayat	Viti	Karunamoyee Ghosh, Ajit Kumar Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Swarnolata Ghosh, Sujit Kumar Ghosh.
		106	0.029	Rayat	Viti	Kalipada Ghosh, Kashinath Ghosh, Satish Ghosh, Abha Rani Ghosh.
		107	0.05	Rayat	Bagan	Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Malabala Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		108	0.06	Rayat	Bastu	Pulin Bihari Ghosh.
		109	0.06	Rayat	Bagan	Borabala Ghosh, Satish Ghosh
		110	0.07	Rayat	Bastu	Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		111	0.07	Rayat	Bastu	Karunamoyee Ghosh, Ajit Kumar Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Swarnolata Ghosh, Sujit Kumar Ghosh.
		112	0.06	Rayat	Viti	Pulin Bihari Ghosh.
		113	0.04	Rayat	Bagan	Karunamoyee Ghosh, Ajit Kumar Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Swarnolata Ghosh, Sujit Kumar Ghosh.
		114	0.03	Rayat	Bastu	Chanditala Gram Panchayet, Annapurna Ghosh
		115	0.05	Rayat	Bagan	Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		116	0.17	Rayat	Pukur	Karunamoyee Ghosh, Ajit Kumar Ghosh, Pintu Pan, Ranjit Kumar Ghosh, Satish Ghosh, Pratap Ghosh, Maniklal Ghosh, Nibaran Ghosh, Tarabala Ghosh, Buro Ghosh, Kashinath Ghosh, Shilarani Ghosh, Swarnolata Ghosh, Sujit Kumar Ghosh.
		117	0.193	Rayat	Bastu	Ananta Deb Chattopadhyay, Jaydeb Chattopadhyay, Dulal Panji, Rabi Pandit, Ramani Panja, Radhanath Pal, Ramdeb Chattopadhyay, Rohini Pal, Shaktideb Chattopadhyay, Sandhya Panji, Sahadeb Chattopadhyay, Suryadeb Chattopadhyay
		118	0.16	Rayat	Bastu	Chanditala Gram Panchayet, Sailendranath Ghosh.
		119	0.063	Rayat	Doba	Charu Chandra Chattopadhyay, Dilip Chattopadhyay, Ashok Chattopadhyay, Raghunath Chattopadhyay.
		282	0.041	Rayat	Nala	West Bengal Government
		306	0.006	Rayat	Viti	Ajit Bandopadhyay, Kinkor Nath Bandopadhyay, Ghanteswar Bandopadhyay, Annapurna Debi Bandopadhyay, Sankar Nath Bandopadhyay, Shib Chandra Bandopadhyay
		308	0.024	Rayat	Bagan	Gorachand Ghosh
		309	0.035	Rayat	Bagan	Debrani Ghosh
		310	0.04	Rayat	Bagan	Sitalamata Thakurani
		311	0.934	Rayat	Suna	Goutam Ghosh, Annapurna Debi Bandopadhyay, Merirani Ghosh, Sanatan Ghosh.
		312	0.06	Rayat	Viti	Kenaram Karmakar
		313	0.05	Rayat	Viti	Sachindranath Karmakar, Shibnath Karmakar, Dipsa Karmakar, Agnisekhar Karmakar, Satyam Karmakar, Prasad Karmakar, Malina Karmakar, Sandhya Karmakar, Ram Chandra Karmakar
		314	0.376	Rayat	Bastu	Dibakar Karmakar, Jaydeb Karmakar, Dwarikanath Karmakar, Manasaram Karmakar, Rabindranath Karmakar, Sailendranath Karmakar, Ram Chandra Karmakar
		315	0.543	Rayat	Pukur	Dibakar Karmakar, Jaydeb Karmakar, Dwarikanath Karmakar, Manasaram Karmakar, Rabindranath Karmakar, Sailendranath Karmakar, Ram Chandra Karmakar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		316	0.06	Rayat	Viti	Sachindranath Karmakar, Shibnath Karmakar, Dipa Karmakar, Agnisekhar Karmakar, Satyam Karmakar, Prasad Karmakar, Mallia Karmakar, Sandhya Karmakar, Becharam Karmakar, Buddhadeb Karmakar, Bholanath Karmakar, Manik Chandra Karmakar, Rani Bala Karmakar, Ram Chandra Karmakar, Sati Bala Dasi.
		317	0.051	Rayat	Bestu	Malik Chandra Karmakar
		318	0.034	Rayat	Bestu	Ranibala Karmakar, Satibala Dasi
		319	0.015	Rayat	Bestu	Sachindranath Karmakar, Shibnath Karmakar, Dipa Karmakar, Agnisekhar Karmakar, Satyam Karmakar, Prasad Karmakar, Mallia Karmakar, Sandhya Karmakar, Ram Chandra Karmakar, Bholanath Karmakar, Buddhadeb Karmakar
		322	0.017	Rayat	Viti	Sachindranath Karmakar, Shibnath Karmakar, Dipa Karmakar, Agnisekhar Karmakar, Satyam Karmakar, Prasad Karmakar, Mallia Karmakar, Sandhya Karmakar, Ram Chandra Karmakar, Bholanath Karmakar, Buddhadeb Karmakar, Becharam Karmakar, Manik Chandra Karmakar, Rani Bala Karmakar, Satibala Dasi
		324	0.489	Rayat	Bagan	Nibaran Ghosh, Buru Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		334	0.002	Rayat	Viti	Maryani Ghosh
		339	0.002	Rayat	Bestu	Kamalabala Ghosh, Manimohan Ghosh.
		340	0.028	Rayat	Suna	Gobina Pal, Dibakar Ghosh, Nimal Chandra Ghosh, Buddhadeb Ghosh, Susama Ghosh
		341	0.05	Rayat	Suna	Gobina Pal, Dibakar Ghosh, Nimal Chandra Ghosh, Buddhadeb Ghosh, Susama Ghosh
		342	0.1	Rayat	Suna	Gobina Pal, Dibakar Ghosh, Nimal Chandra Ghosh, Buddhadeb Ghosh, Susama Ghosh
		343	0.12	Rayat	Suna	Nimal Chandra Ghosh, Gobinda Pal, Dibakar Ghosh, Debrunai Ghosh, Alok Kumar Ghosh, Ashok Kumar Ghosh, Buddhadeb Ghosh, Susama Ghosh.
		344	0.13	Rayat	Kola Bagan	Nimal Chandra Ghosh, Debrunai Ghosh, Alok Kumar Ghosh, Ashok Kumar Ghosh.
		345	0.09	Rayat	Suna	Usharani Ghosh
		346	0.07	Rayat	Viti	Gopal Chandra Ray, Prabir Ray, Semir Ray, Bibhuti Chandra Pal, Madan Ghosh, Manoranjan Pal, Shyamacharan Ghosh
		347	0.04	Rayat	Viti	Bibhuti Chandra Pal, Manoranjan Pal.
		348	0.098	Rayat	Rasta	Zilla Parlad, Hooghly
		349	0.118	Rayat	Rasta	Zilla Parlad, Hooghly
		350	0.089	Rayat	Viti	Kalipada Pal.
		360	0.03	Rayat	Pukur	Kanika Bhattacharya, Anjan Bhattacharya, Keya Bhattacharya, Krishnadhan Bhattacharya, Jayanta Bandopadhyay, Anup Kumar Bhattacharya, Nandaran Bandopadhyay, Pratap Bandopadhyay, Prabhat Bhattacharya, Pravas Chandra Bandopadhyay, Balai Bhattacharya, Madanmohan Bhattacharya, Rama Bhattacharya, Radharani Bandopadhyay, Lalit Bhattacharya, Ajay Bhattacharya, Shyamal Bhattacharya, Indu Bhattacharya, Satish Bhattacharya, Sarbani Bhattacharya
		361	0.082			Kanika Bhattacharya, Anjan Bhattacharya, Keya Bhattacharya, Krishnadhan Bhattacharya, Jayanta Bandopadhyay, Anup Kumar Bhattacharya, Nandaran Bandopadhyay, Pratap Bandopadhyay, Prabhat Bhattacharya, Pravas Chandra Bandopadhyay, Balai Bhattacharya, Madanmohan Bhattacharya, Rama Bhattacharya, Radharani Bandopadhyay, Lalit Bhattacharya, Ajay Bhattacharya, Shyamal Bhattacharya, Indu Bhattacharya, Satish Bhattacharya, Sarbani Bhattacharya
		362	0.327	Rayat	Pukur	Shyamali Das, Gitarani Bandopadhyay
		363	0.02	Rayat	Pukurpar	Joyanta Bandopadhyay, Nandaran Bandopadhyay, Pratap Bandopadhyay, Pravas Bandopadhyay, Radharani Bandopadhyay
		364	0.01	Rayat	2-	Gita rani Bondhopadhyay

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		365	0.79	Rayat	Bagan	Kartick Charan Bhattacharya, Krishnadhan Bhattacharya, Bablu Bhattacharya, Bishwanath Bhattacharya, Bishnupada Pal, Bishnupada Bhattacharya, Ram Chandra Bhattacharya, Laxman Chandra Bhattacharya.
		366	0.22	Rayat	Bastu	Krishnadhan Bhattacharya, Ashwani Kumar Chattopadhyay.
		368	0.003	Rayat	Bagan	Jayanta Bandopadhyay, Pratap Bandopadhyay, Provas Bandopadhyay, Radharani Bandopadhyay
		369	0.16	Rayat	Bagan	Susil Bhattacharya, Malay Bhattacharya, Niharbala Bhattacharya
		370	0.04	Rayat	Bagan	Jayanta Bandopadhyay, Pratap Bandopadhyay, Provas Bandopadhyay, Radharani Bandopadhyay, Shaktipada Chattopadhyay, Shyamal Sengupta
		371	0.04	Rayat	Bagan	Sushil Bhattacharya, Malay Bhattacharya, Niharbala Bhattacharya.
		372	0.01	Rayat	Paykhana	Jayanta Bandopadhyay, Pratap Bandopadhyay, Provas Bandopadhyay, Radharani Bandopadhyay
		373	0.13	Rayat	Bastu	Hasi Chakrabarty, Sankariprasad Chakrabarty, Shyamal Sengupta.
		404	0.108	Rayat	Path	Chanditala Gram Panchayet
		413	0.148	Rayat	Pukur	Kanak Mukhopadhyay, Murarimohan Banerjee, Shyamohan Banerjee, Gopimohan Banerjee, Sandhya Chatterjee, Debnath Bandopadhyay, Nirmal Chandra Bandopadhyay, Mahalaxmi Debi Bandopadhyay, Sumitra Chattopadhyay, Sushil Kumar Ghosh, Sushil Chandra Bandopadhyay
		414	0.57	Rayat	Pukur	Kanak Mukhopadhyay, Chhabirani Ghosh, Murarimohan Banerjee, Laxman Chandra Ghosh, Shyamohan Banerjee, Gopimohan Banerjee, Sandhya Chatterjee, Debnath Bandopadhyay, Nirmal Chandra Bandopadhyay, Mahalaxmi Debi Bandopadhyay, Sumitra Chattopadhyay, Sushil Chandra Bandopadhyay.
		415	0.1	Rayat	Mandir	Sitalamata Mandir, Tarapada Chakraborty
		416	0.12	Rayat	Viti	Bishwanath Ghosh, Madan Ghosh, Laxmibala Ghosh, Shyamacharan Ghosh, Sitalamata Thakurani.
		417	0.1	Rayat	Viti	Karunamoyee Ghosh, Sarath Mukherjee, Ajit Kumar Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Swarnolata Ghosh, Sujit Kumar Ghosh, Kashinath Ghosh, Borabala Ghosh, Satish Ghosh, Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		418	0.14	Rayat	Bastu	Dilip Kumar Ray.
		419	0.276	Rayat	Suna	Ajay Kumar Ghosh, Nirmal Ghosh, Nimai Ghosh, Indubala Dasi, Sabitribala Ghosh.
		420	0.054	Rayat	Kalabagan	Bijayabala Ghosh
		421	0.07	Rayat	Doba	Karunamoyee Ghosh, Malabala Ghosh, Abharani Ghosh, Ajit Kumar Ghosh, Ranjit Kumar Ghosh, Swarnolata Ghosh, Satish Ghosh, Pulin Bihari Ghosh, Nibaran Ghosh, Buro Ghosh, Maniklal Ghosh, Shilarani Ghosh.
		422	0.07	Rayat	Viti	Pratapaditya Chakraborty, Kalipada Ghosh, Kashinath Ghosh, Abharani Ghosh.
		423	0.015	Rayat	Suna	Nirmal Ghosh, Nimai Ghosh, Indubala Dasi, Sabitri Bala Ghosh
		508	0.141	Rayat	Sali	Lalitmohan Pal, Umabala Ghosh
		509	0.071	Rayat	Suna	Tomal Dutta, Bapi Sengupta, Bishwanath Ghosh.
		510	0.039	Rayat	Rasta	Zilla Parisad, Hooghly
		524	0.464	Rayat	Suna	Rekhadebi Shau, M/S. Dankuni Infrastructure, Krishnadhan Ghosh, Krishna Dey, Tustu Charan Ghosh, Banku Bihari Ghosh, Asim Kumar Ghosh, Angurbala Ghosh, Manoranjan Ghosh
		525	0.017	Rayat	Viti	West Bengal
		526	0.023	Rayat	Viti	Tarapada Chakraborty, Aparajita Ghatak, Madan Chakraborty, Rabindranath Chakraborty

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		527	0.426	Rayat	Bagan	Bimal Kumar Das, Nirmal Kumar Das, Jagadree Adak, Meshab Chandra Das Pramanik, Tula Charan Das, Bhupendra Nath Das, Madanmohan Das, Jagat Chandra Das Pramanik, Shyamsunder Pramanik, Upendranath Das Pramanik,
		528	0.244	Rayat	Sali	Gitarani Bandopadhyay
		529	0.102	Rayat	Sali	Gitarani Bandopadhyay
		530	0.031	Rayat	Sali	Gitarani Bandopadhyay
		590	0.011	Rayat	Sali	Uttam Ghosh
		591	0.2	Rayat	Sali	Ratan Ghosh
		592	0.05	Rayat	Sana	Tulsi Charan Das, Phanibhusan Pramanik, Upendra Nath Das Pramanik
		325/1262	0.426	Rayat	Sana	Rakesh Kumar Ghosh, Susama Ghosh, Kalipada Pal, Kesto Chandra Pal, Nirupama Pal, Prasanta Kumar Pal, Bisweswar Pal, Satitram Pal, Sasanta Pal.
		325/1263	0.308	Rayat	Sana	Anil Kumar Ghosh, Parash Ghosh
		325/1264	0.39	Rayat	Sana	Kali Charan Ghosh
		325/1265	0.39	Rayat	Sana	Gobinda Pada Ghosh
		325/1266	0.24	Rayat	Sana	Anil Kumar Ghosh, Parash Ghosh, Basanti Ghosh.
		325/1268	0.086	Rayat	Sana	Santas Ghosh, Goutam Ghosh, Bhim Chandra Ghosh, Rabindranath Ghosh
		325/1269	0.004	Rayat	Sana	Gobinda Pada Ghosh
6.	Kalanchara-54	37	0.026	Rayat	Sali	Abdul Makim Matlick, Somaath Sarkar, Jayaboti Sarkar, Debnath Sarkar, Sandip Bhattacha
		39	0.015	Rayat	Sali	Debnath Sarkar
		152	0.015	Rayat	Sali	Milan chandra Mandal, Anukul Mandal, Jaladhar Mandal.
		153	0.054	Rayat	Sali	Mritunjay Majhi, Dayamoy Majhi, Dhanaanjay Majhi, Parash Nath Majhi.
		157	0.103	Rayat	Sali	Krishna Chandra Ghosh.
		159	0.152	Rayat	Sali	Sarobala Ghosh.
		160	0.169	Rayat	Sali	Jammed Ali Halder.
		161	0.438	Rayat	Sali	Manindra Nath Dey, Gourmohan Dey, Nital Chandra Dey, Baidhyanath Dey.
		162	0.201	Rayat	Nala	Bankubihari Ghosh.
		163	0.395	Rayat	Bandh	West Bengal Government
		189/1160	0.009	Rayat	Sana	Bishwarangan Sen, Sarboranjan Sen, Keshabranjan Sen, Nityaranjan Sen, Haradhan Ghosh
		191	0.038	Rayat	Sali	Becharam Sen, Sk. Fakir Mahommed.
		191/1187	0.165	Rayat	Sali	Mathurmohan Sen.
		192	0.3	Rayat	Sali	Suddarshan Pal, Pachanan Sen
		193	0.93	Rayat	Sali	Subhadrabala Ghosh, Sefali Ghosh.
		194	0.781	Rayat	Sali	Rajlaxmi Dutta, Bijeli Karmakar.
		195	0.761	Rayat	Sali	Mahitosh Ghosh, Ashutosh Ghosh, Paritosh Ghosh.
		196	0.503	Rayat	Sali	Bishwarangan Sen, Sarboranjan Sen, Keshabranjan Sen, Nityaranjan Sen,
		199	0.029	Rayat	Sali	Upendranath Sen.
		200	0.71	Rayat	Sali	Manasapada Dasi, Sankar chandra Dasi.
		201	0.086	Rayat	Sali	Ardendu Basu, Sukhendu Nath Basu, Tapan Basu, Tarun Basu, Arun Chandra Basu, Arabinda Basu
		202	0.413	Rayat	Sali	Manasapada Dasi, Sankar Chandra Dasi, Kashinath Sen, Gebordhan Sen, Pasupati Sen.
		203	0.389	Rayat	Sali	Upendra Nath Sen.
		204	0.079	Rayat	Sali	Sk. Amir Ali, Manorama Jhang, Manoranjan Jhang, Rasbehari Jhang, Kamalabala Jhang, Samiran Jhang, Kalyani Jhang, Sk. Idrish Ali, Chittaranjan Jhang, Abani Mohan Jhang, Jaleswar Jhang, Digambar Jhang, Nanibala Jhang, Purnendu Jhang, Sk. Fakir Mohammad, Bimala Jhang.
		210	0.023	Rayat	Sali	Kartick Jhang.
		212	0.11	Rayat	Sali	Falunmoyee Das
		213	0.18	Rayat	Sali	Upendra Nath Sen.
		213/3383	0.044	Rayat	Sali	Panchanan Sen
		214	0.63	Rayat	Sali	Harihar Swarnokar, Habul Chandra Swarnokar, Kalipada Swarnokar, Kishorimohan Swarnokar, Gobinda Chandra Swarnokar, Anadinath Swarnokar, Tinkori Swarnokar.
		215	0.037	Rayat	Bandh	West Bengal Government
		216	0.592	Rayat	Sali	Mahadeb Chandra Sen, Sital Chandra Sen.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		217	0.002	Rayat	Sali	Binapani Sakar
		218	0.571	Rayat	Sali	Becharam Sen, Sk. Sahajamol Patoare, Kamalabala Dey.
		224/3379	0.094	Rayat	Sali	Upendra Nath Sen.
		434	0.037	Rayat	Nula	Abanimohan Jhang
		435	0.037	Rayat	Bandh	Totaram Malik, Prasanna Kumar Malik
		498	0.011	Rayat	Sali	Madan Mohan Ghosh, Kamalabala Ghosh, Haradhan Ghosh, Dharani Dhar Ghosh
		499	0.189	Rayat	Sali	Dankuni Infrustructurs, Ashwini Kumar Samanta.
		500	0.568	Rayat	Sali	Dankuni Infrustructurs, Sadhan Chandra Bhui, Manmatha Nath Bhui, Dinabandhu Bhattacharya.
		501/3370	0.395	Rayat	Sali	Dankuni Infrustructurs, Menokabala Ghosh.
		504	0.174	Rayat	Sali	Annapurna Dasi
		505	0.096	Rayat	Sali	Haradhan Mandal.
		508	0.023	Rayat	Sali	Kalpida Ghosh, Gour Mohan Ghosh, Jaydeb Ghosh.
		509	0.014	Rayat	Sali	Saroj Kumar Ghosh, Khagendranath Ghosh, Gour Mohan Ghosh.
		511	0.072	Rayat	Sali	Madhusudan Mandal, Mahadeb Mandal, Manasram Mandal, Swapan Kumar Mandal, Sabita Das, Gour Mandal, Bibhuti Bhusan Mandal.
		512	0.225	Rayat	Sali	Shyamapada Ghosh
		513	0.205	Rayat	Sali	Mahadeb Mandal.
		514	0.034	Rayat	Sali	Kesto Chandra Manna, Charu Chandra Manna, Jiban Krishna Manna
		538	0.077	Rayat	Sali	Sanatan Ghosh, Tarun Kanti Ghosh, Ashok Kumar Ghosh.
		667	0.173	Rayat	Sali	Kesto Chandra Ghosh, Charu Chandra Ghosh
		668	0.264	Rayat	Sali	Pesman sales Promotion Pvt.
		669	0.014	Rayat	Sali	Pesman sales Promotion Pvt.
		670	0.11	Rayat	Sali	Pesman sales Promotion Pvt.
		671	0.11	Rayat	Sali	Pesman sales Promotion Pvt.
		672	0.142	Rayat	Sali	Pesman sales Promotion Pvt.
		673	0.065	Rayat	Sali	Pesman sales Promotion Pvt.
		674	0.176	Rayat	Sali	Bholanath Ghosh, Rasmoni Ghosh, Lalitmohan Ghosh, Kanai Ghosh, Nirmal Kumar Bose, Batokrishna Ghosh, Banku Bihari Ghosh, Basudeb Ghosh
		677	0.059	Rayat	Sali	Pesman sales Promotion Pvt., Mahadeb Mandal, Gour Mandal.
		678	0.179	Rayat	Sali	Anukul Mal, Panchanan Mal.
		876	0.023	Rayat	Sali	Pesman sales Promotion Pvt.
		879	0.027	Rayat	Sali	Ghanteswar Ghosh, Annada prasad Ghosh, Dashurathi Ghosh.
		880	0.094	Rayat	Sali	M/S Pesman sales Promotion Pvt.
		881	0.214	Rayat	Sali	M/S Pesman sales Promotion Pvt.
		882	0.027	Rayat	Sali	M/S Pesman sales promotion pvt., Kalachand Pal, Bibhuti Pal, Judhistir Pal, Gobinda Pal, Menoka Pal.
		911	0.294	Rayat	Sali	M/S Pesman sales Promotion Pvt.
		912	0.086	Rayat	Sali	Gadadhar Boral, Prasad Chandra Boral.
		913	0.096	Rayat	Sali	Rabindranath Pal
		914	0.170	Rayat	Sali	Rabindranath Pal, Mihirlal Pal.
		915	0.035	Rayat	Sali	Rabindranath Pal, Mihirlal Pal.
		916	0.389	Rayat	Sali	Shibprasad Pal
		917	0.181	Rayat	Sali	Sachindra Nath Manna, Sunil Kumar Manna, Sristidhar Manna, Patit Paban Manna.
		918	0.332	Rayat	Sali	Subodhbala Boral
		919	0.03	Rayat	Doba	Subodhbala Boral, Sachindra Nath Manna, Sunil Kumar Manna, Sristidhar Manna, Patit Paban Manna.
		941	0.03	Rayat	Doba	Banshi Ghosh, Gobordhan Ghosh, Haradhan Ghosh.
		942	0.029	Rayat	Bagan	Banshi Ghosh, Gobordhan Ghosh, Haradhan Ghosh.
		943	0.043	Rayat	Bagan	Shibprasad Pal, Dashurathi Ghosh, Panchanan Pal
		945	0.025	Rayat	Doba	Bishwanath Boral, Rajkumar Boral, Tapan Kumar Boral
		946	0.051	Rayat	Suna	Sefalibala Boral, Paresh Boral
		950	0.03	Rayat	Doba	Sefalibala Boral, Paresh Boral
		951	0.2	Rayat	Suna	Jaydeb Boral.
		1079	0.055	Rayat	Bandh	West Bengal Government

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2302	0.021	Rayat	Sali	Satkori Ghosh
		2303	0.295	Rayat	Sali	Kanailal Ghosh, Bishwamoyee Das.
		2304	0.318	Rayat	Sali	Kartick Ghosh, Ajay Kumar Ghosh, Ganesh Chandra Ghosh, Ajit Kumar Ghosh, Jaydeb Ghosh, Bijaykrishna Ghosh.
		2370	0.152	Rayat	Sali	Prahlad Kumar Gupta.
		2371	0.029	Rayat	Suna	Bishwanath Ghosh, Tamal Dutta, Bapi Sengupta.
		2372	0.1	Rayat	Suna	Bishwanath Ghosh, Tamal Dutta, Bapi Sengupta.
		2373	0.1	Rayat	Suna	Bishwanath Ghosh, Tamal Dutta, Bapi Sengupta.
		2374	0.002	Rayat	Suna	Dhruba Narayan Dutta, Ujjal Dey, Chhabirani Chakraborty
		2375	0.258	Rayat	Suna	Bishwanath Ghosh, Tamal Dutta, Bapi Sengupta. Ujjal Dey
		2376	0.138	Rayat	Suna	Bishwanath Ghosh, Tamal Dutta, Bapi Sengupta.
		2567	0.118	Rayat	Rali Rasta	West Bengal Government
		2603	0.158	Rayat	Sali	S.K.B. Agency Pvt., Dharendra Nath Maity, Dinabandhu Bhattacharya
		2604	0.059	Rayat	Sali	S.K.B. Agency Pvt.
		2605	0.321	Rayat	Sali	Mahadeb Pal
		2693	0.031	Rayat	Suna	Krishna Chandra Baral
		2694	0.106	Rayat	Suna	Sabitbala Pal, Badal Chandra Pal
		2695	0.07	Rayat	Suna	Bishwanath Baral.
		2696	0.051	Rayat	Suna	Tapen Kumar Baral
		2698	0.071	Rayat	Suna	Banku Bihari Ghosh.
		2699	0.272	Rayat	Suna	Bholanath Ghosh, Raemoni Ghosh, Lalitmoan Ghosh, Kanai Ghosh, Nirmal Kumar Bose, Batokrishna Ghosh, Bankubihari Ghosh, Basudeb Ghosh.
		2702	0.027	Rayat	Sali	Mihirpal Pal, Patalbala Dasi.
		2712	0.088	Rayat	Sali	Srikanta Das
		2713	0.069	Rayat	Sali	Tapen Kumar Baral
		2714	0.08	Rayat	Sali	Rakhobala Pal, Susila Bala Pal, Anukul Mal, Panchanan Mal.
		2715	0.087	Rayat	Sali	Rajkumar Baral, Tapen Kumar Baral.
		2716	0.064	Rayat	Suna	Senkar Nath Baral, Shibnath Baral, Gobinda Chandra Baral, Madanmohan Baral, Gadadhar Baral, Prasad Baral
		2717	0.07	Rayat	Suna	Sankarnath Baral, Shibnath Baral, Gobinda Chandra Baral
		2719	0.216	Rayat	Suna	Haradhan Ghosh
		2736	0.135	Rayat	Sali	M/s Kohinoor Sari Pvt.
		2738	0.118	Rayat	Suna	Sukumor Ghosh.
		2739	0.097	Rayat	Suna	Banku Bihari Ghosh.
		2753	0.142	Rayat	Sali	Bholanath Ghosh, Manimohan Ghosh, Keshablal Ghosh, Jitendranath Ghosh, Nisith Ranjan Ghosh
		2758	0.004	Rayat	Sali	Mihirpal Pal, Meghnath Pal, Ishani Enterprise, Nimai Chandra Ghosh, Patalbala Dasi
		2759	0.106	Rayat	Sali	Sabitbala Ghosh
		2760	0.047	Rayat	Sali	Banku Bihari Ghosh.
		2761	0.061	Rayat	Sali	Panchubala Dasi, Bishnupada Santra, Jayanti Santra, Srikanta Das.
		2762	0.011	Rayat	Sali	Kanai Baral
		2763	0.062	Rayat	Sali	Krishna Chandra Baral
		2766	0.086	Rayat	Sali	Bholanath Ghosh, Manimohan Ghosh, Keshablal Ghosh, Jitendranath Ghosh, Nisith Ranjan Ghosh
		2767	0.08	Rayat	Sali	Dinabandhu Bhattacharya
		2768	0.192	Rayat	Sali	Sankosh Ghosh.
		2772	0.172	Rayat	Sali	Haradhan Ghosh, Kalachand Ghosh, Panchanan Ghosh.
		2808	0.271	Rayat	Rasta	West Bengal Government
		2918	0.002	Rayat	Sali	Gopal Chandra Purokait
		2919	0.015	Rayat	Sali	Gopal Chandra Purokait
		2920	0.019	Rayat	Sali	Brindaban Bosu
		2921	0.019	Rayat	Sali	Brindaban Bosu
		2922	0.16	Rayat	Sali	Wazed Ali Halder, Sariful Ali Halder, Mantaf Ali Halder
		2923	0.177	Rayat	Sali	Dinabandhu Bhattacharya
		2934	0.01	Rayat	Sali	Rakha Bhattacharya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2935	0.311	Rayat	Suna	Ramgopal Mitra, Amiya Mitra, Asim Kr. Mitra, Sukla Bose, Asis Kr. Mitra, Nimai Chandra Mitra
		2936	0.027	Rayat	Sali	Panchubala Dasi
		2937	0.108	Rayat	Sali	Bishwanath Ghosh, Tamal Dutta, Nirapada Ghosh, Felaram Ghosh, Bapi Sengupta
		2938	0.284	Rayat	Sali	Bhupen Chandra Ghosh, Laxman Chandra Ghosh, Tanushree Pan, Padmalochan Bose, Balai Chandra Ghosh, Satish Ghosh.
		2955	0.265	Rayat	Sali	Hemanta Purkaito, Fakir Chandra Ghosh, Badalmati Dasi
		2975	0.177	Rayat	Sali	Madanmohan Ghosh, Manasa Ghosh, Sadhan Ghosh, Gangadhar Ghosh, Gadadhar Ghosh, Mritunjay Ghosh, Raju Ghosh, Sanjay Ghosh, Aparna Ghosh, Arup Ghosh, Anup Ghosh, Ananda Ghosh, Srikanta Sadhukhan, Malay Sadhukhan, Sukanta Koley, Sudip Koley, Anima Koley, Rupa Koley, Prosun Ghosh, Janaki Kanta Ghosh
		2976	0.088	Rayat	Bansh Bagan	Bharat Chandra Ghosh, Manmathanath Ghosh, Santosh Kumar Ghosh, Gour Mohan Ghosh, Tarakbala Ghosh, Banku Bhowmik Ghosh.
		2979	0.301	Rayat	Bansh Bagan	Pranab Kr. Das, Gopinath Ghosh, Nidharan Ghosh, Haridas Ghosh, Subhra Ghosh, Ratan Joti, Abhijit Pal, Milan Chandra Pal, Bishwajit Pal, Anita Pal, Swapan Majhi, Asit Karmakar, Jharna Karmakar, Sukumar Bose, Sumitra Modak, Sikha Ghosh, Deb Kumar Manna, Sukhen Manna, Sabita Ray, Dhananjay Ghosh.
		2980	0.05	Rayat	Bansh Bagan	Ardhendu Bose, Sukhen Bose, Tapan Bose, Tarun Bose, Arun Chandra Bose, Arabinda Bose
		2983	0.148	Rayat	Doba	Nimai Chandra Ghosh, Fakir Chandra Ghosh, Balai Chandra Ghosh.
		2984	0.288	Rayat	Suna	Bishwanath Ghosh.
		2986	0.118	Rayat	Bansh Bagan	Bishwanath Ghosh.
		2987	0.011	Rayat	Bansh Bagan	Madan Kumar Bose, Shayam Chandra Bose, Dhrubo Bose
		2988	0.011	Rayat	Bansh Bagan	Brindaban Bose
		2989	0.011	Rayat	Bansh Bagan	Bishnu Bose, Bhishma Bose.
		3023	0.276	Rayat	Suna	Kashinath Mandal, Kamala Mandal, Sufal Mandal, Nabakumar Mandal
		3024	0.035	Rayat	Suna	Kishorimohan Mandal, Kashinath Mandal, Kamala Mandal, Sufal Mandal, Nabakumar Mandal
		3025	0.089	Rayat	Suna	Bhupen Chandra Ghosh, Satish Chandra Ghosh, Sanatan Ghosh, Sonarani Ghosh, Gobordhan Ghosh, Gorachand Ghosh, Jagannath Ghosh, Padmalochan Bose, Balai Chandra Ghosh.
		3026	0.16	Rayat	Bagan	Bhabendra Paramanik, Madan Mohan Das Paramanik, Jugal Chandra Paramanik, Upendra Nath Das Paramanik, Shyamsundar Paramanik, Keshab Chandra Das Paramanik, Phanibhusan Paramanik.
		3027	0.16	Rayat	Bagan	Bhadreswar Paramanik, Dilip Das, Ashok Kumar Das Paramanik, Angur Bala Dasi.
		3028	0.249	Rayat	Suna	Kishori Mohan Mandal, Prankrishna Mandal.
		3029	0.003	Rayat	Suna	Bishwanath Pal, Subhendu Kumar, Krishna Sadhukhan.
		3030	0.077	Rayat	Suna	Bishwanath Pal, Dipak Koley, Goutam Banerjee, Pankojini Pal
		3031	0.094	Rayat	Suna	Sulata Mandal, Sampa Das, Goutam Banerjee, Pankojini Pal.
		3032	101	Rayat	Suna	Sulata Mandal, Pankojini Pal, Sikha Ghosh, Laxman Chandra Ghosh.
		3038	0.03	Rayat	Path	6 no. Chanditala Union Board, Kalachara
		3046	0.008	Rayat	Bagan	Kishori Mohan Mandal
		3047	0.023	Rayat	Bagan	Kishori Mohan Mandal
		3053	0.003	Rayat	Suna	Upendra Nath Das Paramanik, Dilip Kumar Adak
		3054	0.035	Rayat	Suna	Upendra Nath Das Paramanik, Dilip Kumar Adak

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3085	0.029	Rayat	Suna	Upendra Nath Das Paramanik, Dimp Kumar Adak
		3086	0.098	Rayat	Suna	Phanibhusan Paramanik.
		3087	0.13	Rayat	Suna	Bhabendra Nath Paramanik, Madan Mohan Das Paramanik, Jugal Chandra Paramanik, Upendra Nath Das Paramanik, Shyamsundar Paramanik, Keshab Chandra Das, Paramanik, Phanibhusan Paramanik.
		3088	0.029	Rayat	Suna	Upendra Nath Das Paramanik, Phanibhusan Paramanik
		3089	0.027	Rayat	Suna	Upendra Nath Das Paramanik, Phanibhusan Paramanik
		3090	0.049	Rayat	Suna	Upendra Nath Das Paramanik, Phanibhusan Paramanik
		3091	0.148	Rayat	Suna	Upendra Nath Das Paramanik, Phanibhusan Paramanik
		3092	0.11	Rayat	Suna	Upendra Nath Das Paramanik, Phanibhusan Paramanik
		3093	0.05	Rayat	Suna	Upendra Nath Das Paramanik, Phanibhusan Paramanik
		3094	0.017	Rayat	Suna	Upendra Nath Das Paramanik, Phanibhusan Paramanik
		3095	0.282	Rayat	Suna	Kamalabala Dasl.
		2713/3078	0.1	Rayat	Sali	Srikanta Das
		2303/3087	0.02	Rayat	Sali	Satkor Ghosh.
		2542/3137	0.26	Rayat	Rasta	West Bengal Government

[F. No. 2010/W-2/ER/NL/03-Spl. Rly. Project]

VINAY SINGH, Executive Director/wqrks